Capital Small Finance Bank



कमांक Sr.No.								ग्राहक पहचान पत्र-1 Cust id 1				
						1	1	ग्राहक पहचान पत्र—2 Cust id 2				
खाता संख्या A/c no.								ग्राहक पहचान पत्र—3 Cust id 3				

अनिवासी भारतीय खाता खोलने का फॉर्म

NRI AC	COU	JNT ()PE	NIN	G FORM
	आ	ावश्यक दस्तावेज MAN	IDATORY DOCUM	ENTS	
एन आर आई (भारतीय पासपोर्ट घारक) NRI (Indian Pa	assport Holder)	रतीय मूल के एन आर आई व्यवि (PI		- 199711 191	ट नेवी (नाविकों) के साथ कार्यरत एन आर आई byed with Foreign Merchant Navy (Seafarers)
भारतीय पासपोर्ट की प्रति Copy of Indian Pa	ssport	विदेशी देश के पासपोर्ट Copy of Overseas Cour	ntry Passport		सपोर्ट की प्रति Copy of Indian Passport
वीज़ा / कार्य / निवास परमिट कॉपी Copy of Valid Visa/Work/Residence Per	rmit	मारत के विदेशी नागरिक कार्ड की में स्वयं या माता-पिता या दादा-द Copy of Overseas Citizen of Indian Passport held by self parents as PIO Proof	India Card (OCI) or Copy of	grand Principal/	व्रतिया प्रिसिंपल/एजेंट/संपर्क से मूल पत्र अधिकारी rract Copy or Original Letter from Agent/Liaison
विदेशी पते का प्रमाण Proof of Ovearsea: भारतीय पते का प्रमाण/घोषणा Proof/decl of Indian Address	विदेशी पते का प्रमाण Pro भारतीय पते का प्रमाण/घो of Indian Address		प्रमुख/एजेंट/सा Original Letter 1. कर्मचारी का — Employment i Name of Vess of joining 5. क 7. विदेशी युदा में	पर्क अधिकारी से वैध अनुबंध प्रति या मूल पत्र from the Company providing मा Name of the Employee 2. मुख्य श्रिमिंग कंपनी में रोजगार मा Principal shipping Company 3. यो का याना और घ्या हो and Flag 4. आमिल होने के बरपाइ का गाम Name of the Port पुत्रच की युक्तपाद Commencement of Contract 6. कार्यकार्त गाम वैयान Salary in Foreign currency 8. सी की सी CDC	
नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो Latest Pass	नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो Latest Passport Size Photo नवीनतम पासप				पोर्ट साइज़ फोटो Latest Passport Size Photo
पैन कार्ड कॉपी PAN Card Copy फॉ	र्म 60 Form 60	पैन कार्ड प्रति PAN Card	Copy फॉर्म 60 Fo	rm 60 पैन कार्ड क	जॅपी PAN Card Copy फार्म 60 Form 60
		पासपोर्ट विवकरण	Passport Detai	Is	
आवेदक Applicant	आवेदक	1st Applicant	आवेदक 2nd	Applicant	आवेदक 3rd Applicant
पासपोर्ट संख्या Passport No.					
जारी करने की तिथि और स्थान Date and place of issue					
पासपोर्ट की वैद्यता खत्म होने की अंतिम तिथि Passport Expiry Date					
वीज़ा का प्रकार और वीज़ा नम्बर Type of Visa & Visa No (Tourist, Work, Resident, Student, Diplomat, UN Official.)					
वीजा जारी करने की तिथि Date of Visa Issuance					
वीज़ा समाप्ति की तारीख Date of Visa Expiry	,				
पी आई ओ के मामले में दस्तावेज का विवरण Detail of Document in case of PIO/OCI टी आई एन नम्बर & जारी करने वाला देश					
टा आई एन नम्बर & जारा करने वाला देश TIN No. & Issuing Country					
पते का प्रमाण Address Proof					
(Capital Small Finance Bank Ltd. Global	Intermediary Ider	,		SL. 356)	
गैर आमने—सामने खाता खोलने के लिए केवाईसी द्वारा किए जाने वाले हस्ताक्षरों का सत्यापन For op should be certified by any of the following: VERIFICATION OF SIGNATURES TO BE MAI भारतीय दूतावास Indian Embass	ening Non Face to F DE BY	Face account, signatures at re	हस्ताक्षर और फोटोग्राफ equired places and pho	को निम्नलिखित में से कि tograph pasted on this fo उच्च आयुक्त High Co	orm along with the copies of KYC document वाणिज्य दत्तावास
द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर Signatures ve (पद Designation				Sig	nature with Stamp
(14 Dosignation		बैंक उपयोग के f		lse	
प्रथम स्त्रोत Sourced By		खोलने की अनुमति के ermitted to open Accour			Branch Head
Emp.Name	Po	Signa		incer	Signature
Emp.Name		Emp.Name			Emp.Name
E.Code Back Office inputer		E.Code प्राधिकरण A	uthorizer		E.Code
Signature		Signa			बैंक की मुहर Branch Stamp
Emp.Name		Emp.Name			
E.Code		F.Code			

Capital Small Finance Bank 🔀

शाखा प्रबंधक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कृप्या मेरा/हमारा/संयुक्त खाता खोलें	तिथि / Date	D D M M Y Y Y
The Branch Manager, Capital Small Finance Bank Ltd. Please open my/our /joint account at yo	ur	शाखा Branch
	खाता विकल्प ACCOUNT OPTIONS	
बचत SAVING	एन आर ई NRE एन आर ओ NRO समान्य बजत Savi	ing General किपेटल बचत Capital Saving
चालू (व्यकितगत) CURRENT (Individual)	एन आर ई NRE एन आर ओ NRO समान्य चालू Curr	ent General किपटल चालू Capital Current
सावधि जमा FIXE (Request Form for opening (सावधि जमा खोलने के लिए उ	of Term Deposit is mandatory) (Days/ Months/ Year)	
□ सी डी CD		सेवर आर डी Saver RD
	निजी जानकारी PERSONAL DETAILS	
निवेदक शीर्षक Applicant Title	खाता धारक के नाम Name of the Account holder(s)	प्रथम निवेदक के साथ संबंध Relationship with First Applicant
1		
2		
3		
	संचालन कर तरीका MODE OF OPERATION	
एकल Single	या तो या उत्तरजीवी पूर्व या उत्तरजीवी Either or Survivor Survivor	अन्य या उत्तरजीवी Anyone or Survivor
सभी संयुक्तों द्वारा Jointy by All	Others (कृपया लिखें) (Please Specify)	
	वितरणयोग्य DELIVERABLES	
पास बुक Pass Book	हाँ Yes नहीं No डेबिट कार्ड Debit Card (खाता किस्म पर आधारित As per Account Category)	हाँ Yes नहीं No
चैक बुक Cheque Book	हाँ Yes नहीं No	
الله المناب على	आरंभिक भगुतान INITIAL PAYMENT	
राशि (अंकों में) Amount (in Figures)	शब्दों में In words	<u> </u>
	मेरे / हमारे खाता संख्या ny / our Account no (चैक नंबर Cheque Number
নিথি Date	Y Y Y P निकाले गए B A N K N A M E Drawn On	शाखा Branch
,	जमा राशि के लिए किसी भी मोड से थर्ड पार्टी पेमेंट स्वीकार नहीं की जाएगी) (No third party payment shall	, , ,
	ग्रदि मैंने ∕ हमने शुक्त में खाते में 20000 रुपये या उससे अधिक के लिए नकद राशि जमा की है, तो यह मुझे केवल उ opened, if I /We have initially funded the account in cash for Rs 20000 or more, it will be refunded to	
	इ-बैकिंग सेवाये E-BANKING SERVICES	
	कृप्या इच्छित पर (४) तथा अन इच्छित पर (★) लगाओ । कोई भी बलॉक खार्ल Please tick the desired (४) Cross the undesired (★) Do not leave any field	ी न छोड़े BI ANK
मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts	इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking ई-स्टेटमेंट E-Statement	कैपिटल ए टी एम/डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card
ई मेल आई डी <i>(</i> ई स्टेटमेंट)		
Email ID (e-statement)	दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly मासिक Monthly	त्रै मासिक छमाही Half yearly
*मोबाईल नम्बर *Mobile No.	मोबाईल सेवा प्रदाता Mobile Service Provider	
 डिजिटल बैंकिंग के लिए मोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकरण व अलर्ट जो आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है और बैंक व 	े लिए.) * (Applicable only for numbers issued in India) गियार्थ हैं Registration for Mobile Alerts is mandatory for Digital Banking गर उपकुर मात्रा वर्ग बात अर्च ने अब्बा बाएगा, गर्दी क्षान्य सुविधा के लिए सदस्या ना ती हो। Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropria	ate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility.
 बिना किसी शुल्क के बैंक द्वारा डिफॉल्ट रूप से विनि हस्ताक्षर / अंग् 	यागक और जोशिया जलरें भेजे जाएंगे। Regulatory & Risk alerts will be sent by the bank by default without any charges. 3 का निशान इस्ताक्षर / अंगुठे का निशान इ	स्ताक्षर/अंगूठे का निशान
आवेदर *Signature (s) / Th	ह −1 अग्रवेदक −2 umb Impression *Signature (s) / Thumb Impression *Sign	आवेदक —3 nature (s) / Thumb Impression
of 1st Ap	plicant of 2nd Applicant	of 3rd Applicant
अनुरोध दर्ज करने की ति	াথি Request Lodgement Date	
पल्स संदर्भ संख्या Puls	e Unique Ref. No	के द्वारा सत्यापित Verified by

आवेदक- 1 Applicant - l 🧪 अनिवासी भारतीय NON RESIDENT	अनिवार्य फीलड *Fields are Mandatory								
ग्राहक ID जन्म स्थल	जोखिम वर्गीकरण								
Customer Id Place of Birth	Risk Categorisation								
*नाम Name									
*जन्म तिथि DOB DDMMYYYYY *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single	_ विवाहित Married								
*लिंग Gender 💹 पुरूष Male स्त्री Female 💹 किन्नर Transgender 💹 *राष्ट्रीयता Nation	ality 🔃 भारतीय Indian 🔃 विदेशी Overseas								
*जातीय श्रेणी Caste category 📗 सामान्य General 📗 पछड़ी जाति OBC 📗 एस सी	SC एस टी ST								
निवास का देश (कर कानूनों के अनुसार) Country of Residence (as per tax laws)									
Country of Residence (as per tax laws) ड्राइविंग लाइसेंस Driving License	Recent								
AADRAAN LILI	Passport								
फार्म 60 *धर्म Form 60 *Religion *शक्षाणिक योग्यता रोज़गार *Qualification Occupation	Size Photo								
*पिता का नाम *Father's Name									
*माता का नाम *Mother's Name									
*जीवन साथी का नाम *Spouse Name									
विदेशी पता	Signature / Thumb								
*Overseas Address	Impression of 1st Applicant								
CITY PINCODE STATE COU	NTRY MOBILE NO								
भारतीय पता									
Indian Address									
CITY PINCODE STATE COU	N T R Y Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one V N								
ई मेल आइ डी Email ID	क्या आप राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) है या किसी से संबंधित है लाख								
*आय चरम Income Slab: 0-2 Lac >2-5 Lac >5-10 Lac	>10-25 Lac > 25 Lac								
*आय के साधन वेतन पैंशन व्यापारिक आय कृषि निवेशित आय *Source of Funds Salary Pension Business Income Agriculture Investment Incom	किराए अन्य कृप्या लिखें ne Rental Others Please Specify								
*कुल आय हु. 100 लाख तक हू. 100 लाख से 200 लाख तक हू. 200 लाख से 200 लाख तक फ. 200 लाख से 200 लाख तक Above Rs. 100 Lac to 200 Lac Above Rs. 200	500 लाख तक D Lac To 500 lac								
Net Worth	गई सी नंबर								
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No.									
FATCA/CRS घोषणा पत्र FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)									
	•								
भाग A PART A हा Yes ना No a. क्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं?	भाग बी / PART B								
a. क्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)?	माग वी / PART B .ddress for Tax Residence - शहर/City								
### A PART A हा Yes ना No a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल है? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अलावा कोई देश हैं? Is your Country of birth is any country other than India?	माग बी / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के मीतर जन्म स्थान / place of birth धन का स्रोत								
भाग A PART A a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अलावा कोई देश हैं? Is your Country of birth is any country other than India? c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? Are you Tax resident of ANY country/lies other than India? कर निवास के लिए पता/ A देश/ Country जन्म को देश/ Country of I Source of Wealth कर निवास के देश	माग बी / PART B .ddress for Tax Residence								
भाग A PART A हा Yes ना No a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल है?	माग बी / PART B .ddress for Tax Residence								
### A PART A a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नामरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं?	माग बी / PART B .ddress for Tax Residence								
a. क्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं?	माग बी / PART B .ddress for Tax Residence								
### A PART A a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नामरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं?	भाग बी / PART B ddress for Tax Residence								
शाग A PART A हा Yes ना No a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं जिसमें यीन कार्ड भी शामिल है? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अलावा कोई देश है? Is your Country of birth is any country other than India? च्या आपका पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? जन्म अपके पाम पीकोर या मैंडेट डालक है जिसका पता भारत से बाहर है? Out and the pool of a mandate holder who has an address outside India? च्या आपके पाम पीकोर या मैंडेट डालक है जिसका पता भारत से बाहर है? Out stide India? च्या आपके पाम पीकोर या मैंडेट डालक है जिसका पता भारत से बाहर है? Out stide India? च्या सापके पाम पीकोर या मैंडेट डालक है जिसका पता भारत से बाहर है? Out stide India? च्या सापके पता या टेलीफोन नंबर हैं I जिसका पता पता में से बाहर के पता पता में से बाहर के पता पता में से सापके पता या टेलीफोन नंबर हैं I जिसका पता पता में से पता पता पता पता पता में से बाहर के पता	माग बी / PART B ddress for Tax Residence								
a. क्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल है?	साग बी / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth हान का स्रोत राष्ट्रीयता/Nationality Т कर पहचान संख्या								
शग A PART A हा Yes ना No a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल है? क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश है जिस के कर निवासी हैं? Is your Country of birth is any country other than India? C. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? Are you Tax resident of ANY country/lies other than India? Source of Wealth Are you Tax resident of ANY country/lies other than India? G. क्या आपके पास पीओए या मैं हैट ह्यारक है जिसका पता भारत से बाहर है? B. भारत के बाहर का आपका पता या टेलीफोन नंबर है If your address or telephone number outside India यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो कृपया भाग ख भरें If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि मैंने भारत सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई हारा इस संबंध में अधि 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे हारा प्रदान किए गए समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य मेरे सर्वत्तम झान और विश्वास के अनुसार यूएस रिपोर्ट करने योग्य खात/ अन्य रिपोर्ट पर खाते का मूल्यांकन/ वर्गीकरण प्रमावित हो / I certify that the information stated in the accout to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material infort	माग बी / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth [Inth] पाष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या Tax identification number* स्थित भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है। ia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this , सत्य, सही और पूर्ण है और मैंने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी / दस्तावेज नहीं छिपाया है। जिससे t opening form and supporting documentary evidence provided by me is								
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? b. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? c. क्या आपका जान्म देश भारत के अलावा कोई देश हैं? Is your Country of birth is any country other than India? d. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? Are you Tax resident of ANY country/lies other than India? e. बारत के बाहर का आपका पान में हैंट धारक है जिसका पता भारत से बाहर हैं? If your address or telephone number outside India यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर हों है तो कृपया भाग ख भरें। If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं ———————————————————————————————————	साग बी / PART B ddress for Tax Residence								
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? Are you Citizen of any country other than India	साग बी / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth पाष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या त कर पहचान स्वत्योज त identification Document स्वित भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है। ia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this , सत्य, सही और पूर्ण है और मैंने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी / दस्तावेज नहीं छिपाया है जिससे nt opening form and supporting documentary evidence provided by me is mation/document that may affect the assessment/categorization of the ों के अनुसार आवासीय स्थिति और / या उसमें निधारित अन्य मानदंडों के आधार पर मेरे खाते के संबंध और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है।								
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? b. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. क्या आप भारत के आलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. मारत के बाहर का आपका पता या टेलीफोन नंबर हैं। If your address or telephone number outside India यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो कृपया भाग ख मरें। If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं ———————————————————————————————————	साग की / PART B ddress for Tax Residence								
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं जिसमें चीन कार्ड भी शामिल हैं? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अलावा कोई देश है? Is your Country of birth is any country other than India? c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आपके पास पीकोए या मैं केट हाएक हैं जिसका पता भारत से बाहर हैं? Do you have POA or a mandate holder who has an address or telephone number outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता या टेलीफोन नंबर हैं । यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर हों हैं तो कृपया भाग ख भरें । If your answer to any of the above questions is a "YES' please fill Part B 1. मैं ———————————————————————————————————	साग की / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth पाष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या तिक्षण कर पहचान स्त्वाचेज तिक्षण कर्मण कर्मण कर्मण कर्मण है । हे								
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं जिसमें चीन कार्ड भी शामिल है? Are you Citizen of any country other than India? b. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं जिसमें चीन कार्ड भी शामिल है? Li syour Country of birth is any country other than India? c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के आरावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के आरावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के आरावा किसी आन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के आरावा किसी आन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के आरावा किसी आन्य देश के कर निवासी हैं? d. अप आप भारत के आरावा किसी आन्य देश कर के कर निवासी हैं? d. अप	साग की PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth पाष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या तिक्षण प्रमुख्या अपनी स्थिति घोषित की है। [अंत्रिट्या भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है। [अंत्रिट्या भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है। [अंत्रिट्या भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है। [अंत्रिट्या मान्दंडों के आधार पर मेरे खाते के संबंध और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। [अंत्रिट्या पर मेरे खाते के संवर्ध की स्थाय पर मेरे खाते के संबंध और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। [अंत्रिट्या पर मेरे खाते के सीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। ।								
a. क्या आप मारत के अलाव किसी अन्य देश के नागरिक हैं (जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? Are you Citizen of any country other than India (dua/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश मारत के अलावा कोई देश है? Is your Country of birth is any country other than India? c. क्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? Are you Tax resident of ANY country/lies other than India? d. क्या आपको पास पीओए या मैंडेट छारक है जिसका पता भारत से बाहर हैं? Do you have POA or a mandate holder who has an address e. मारत के बाहर का आपका पता या टेलीफोन नंबर हैं If your answer to any of the above questions is a "YES' please fill Part B 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि मैंने भारत सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधि certify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे द्वारा प्रवान किए गए समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य मेरे सर्वांत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यूएस रिपोर्ट करने योग्य खात/अन्य रिपोर्ट पर खाते का मूल्यांकन / वर्गीकरण प्रमावित हो / I certify that the information stated in the account of the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material infor account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise. 3. मैं समझता / समझती हूं के मैं स्वींकार करता हूं और अधिकृत करता हूं के इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनयम के नियमों और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्द में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम एकएटीसीए और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों सीआएस र understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of r Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter-GovernmentalAgreem common Repo	साम की / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म रथान / place of birth पर्देशियता/Nationality त कर पहचान संख्या तिकाल्प कर पहचान दस्तावेज तिकाल्प कर पहचान दस्तावेज त्वर्भ प्रणित घोषित की है। ia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this कर पहचान दस्तावेज नहीं छिपाया है जिससे कर्म पहचान वस्तावेज हैं। ह अनुसार आवासीय स्थिति और / या उसमें निधारित अन्य मानदंडों के आधार पर मेरे खाते के संबंध और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। ह guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon ny account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct ents (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and rian होने पर 30 दिनों के भीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I formation provided in the account opening form and signed by me as well								
a. स्था आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? Are you Citizen of any country other than India' (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश मारत के अलावा किसी आपते हैं हो है? Is your Country of birth is any country other than India? c. क्या आप मारत के अलावा किसी आपते हैं यह के कर निवासी हैं? d. Do you have POA or a mandate holder who has an address outside India? e. मारत के अलावा किसी आपते हैं आपते हैं जिसके। पता भारत से बाहर है? Do you have POA or a mandate holder who has an address outside India? e. मारत के आपका पता या टेलीफोन नंबर हैं। तो प्रथम माग ख मरें। If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं ———————————————————————————————————	साग की PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth प्राष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या तिक्र पहचान संख्या तिकर पाया है जिससे तिकर को कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। वि guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon त्याप करवान की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। वि guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon त्याप करवान की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। वि guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon त्याप करवान की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी की जिम्मेदारी लेता हूं। वि पत्रा होने पर 30 दिनों के भीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। वि पत्रा मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी।। d Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in								
a. बंगा आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं. जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? Are you Citizen of any country other than India (dua/multiple) (including Green Card)? b. वया आपका जन्म देश भारत के अलावा कोई देश है? Is your Country of birth is any country other than India? c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. क्या आपके पास पीओए या मैंडेट धारक हैं जिसका पता भारत से बाहर हैं? Do you have POA or a mandate holder who has an address e. भारत के बाहर का आपका पासा या टेलीफोन नंबर है । If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं ———————————————————————————————————	साग की PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth प्राष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या तिक्र पहचान संख्या तिकर पाया है जिससे तिकर को कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। वि guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon त्याप करवान की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। वि guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon त्याप करवान की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। वि guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon त्याप करवान की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी की जिम्मेदारी लेता हूं। वि पत्रा होने पर 30 दिनों के भीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। वि पत्रा मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी।। d Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in								
a. ब्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं.जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल है? b. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं.जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल है? c. बया आप कारन के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं.जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल है? d. b. बया आप कारन के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप का जन्म देश मारत के अलावा कीई देश हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. au आप के पारत के अलावा किसी आप अलावा किसी के पारत मारत से बाइर हैं? outside India? e. lix Your address or telephone number outside India 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि मैंन भारत सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधि I certify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे द्वारा प्रमावित हो / I certify that the information stated in the accout to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material infor account at JUS Reportable account/Other Reportable account or other wise. 3. मैं समझता / समझती हूं कि मैं स्वीकर करता हूं की इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनयम के नियमों और सरकार द्वारा जारी दिशानिक से में केंद्रीय प्रवास कर वेंद्रीय के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनयम एफएरेटीसीए और सामान्य रियोटिंग मानकों सीआरएस understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the the	साग की / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth पाष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या तिकार विकारांगिदारांण number* स्वित भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है। ia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this ia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this nt opening form and supporting documentary evidence provided by me is mation/document that may affect the assessment/categorization of the ों के अनुसार आवासीय स्थिति और / या उसमें निधारित अन्य मानदंडों के आधार पर मेरे खाते के संबंध और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन वैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। e guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon ny account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct ents (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and uraत होने पर 30 दिनों के भीतर फ़ाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I formation provided in the account opening form and signed by me as well विफलता मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी।। d Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not								
a. ब्या आप मारत के अतावा किसी अन्य देश के मारिक हैं रिसमें प्रीम कार्ड भी शामिल हैं? b. बया आपका जान्य देश मारत के अतावा किसी अन्य देश के मारिक हैं रिसमें प्रीम कार्ड भी शामिल हैं? b. बया आपका जान्य देश मारत के अतावा किसी अन्य देश के मारिक हैं रिसमें प्रीम कार्ड भी शामिल हैं? c. बया आपका जान्य देश मारत के अतावा किसी अन्य देश हैं कर निवास हैं? d. Brown Country of birth is any country other than India? d. Brown Tax resident of ANY country/lies other than India? d. Brown Tax resident of ANY country/lies other than India? e. Brown address or telephone anumber outside India यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर हैं जिसका प्रता भारत से बाहर हैं? If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. में — प्रमाणित करता हूं कि मैं भारत सरकार के अतावा की से देश प्रता अत्य कर बोर्ड सीबीडीटी मारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधि I certify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of Ind regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे द्वारा प्रतान किए गए समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य मेरे सर्वोत्तम झान और विश्वास के अनुसार यूरास सियंट करते योग्य खाते / अन्य रिपोर्ट पर खाते का मूत्यांकन/ वर्गीकरण प्रमावित हो / I certify that the information stated in the account to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material infor account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise. 3. मैं सम्बाला/ समझती हैं कि मैं सीबार करता हूं और अधिकृत करता हूं कि इसले हता बनाए गए आयाकर अधिनेयम फरएटीसीए और सामान्य रिपोर्टिंग मानको सीआरएस में कंद्रीय प्रत्यक्ष कर बीर्ड सीबीडीटी या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनेयम फफरएटीसीए और सामान्य रिपोर्टिंग मानको सीआरएस प्रात्यक्व कर बीर्ड सीबीडीटी या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनेयम एकएटीसीए और सरकार द्वारा जी सीखार में कंद्रीय प्रताब कर बीर्ड सीबीडीटी या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन मेर हे हाए प्रदाव के किए मेर प्रताबित के और मेर हाए हारक	साग की / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth पाष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या तिकार विकारांगिदारांण number* स्वित भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है। ia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this ia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this nt opening form and supporting documentary evidence provided by me is mation/document that may affect the assessment/categorization of the ों के अनुसार आवासीय स्थिति और / या उसमें निधारित अन्य मानदंडों के आधार पर मेरे खाते के संबंध और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन वैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। e guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon ny account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct ents (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and uraत होने पर 30 दिनों के भीतर फ़ाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I formation provided in the account opening form and signed by me as well विफलता मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी।। d Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not								
a. ब्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के मागिरिक हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? b. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के मागिरिक हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? c. बया आप का जन्म देश मारत के अलावा किसी अन्य देश के कारता कीई देश है? Is your Country of birth is any country other than India? c. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. Do you have POA or a mandate holder who has an address? e. मारत के बाहर का आपका पता या टेलीफोन नंबर हैं जिस के प्राथम मारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? e. मारत के बाहर का आपका पता या टेलीफोन नंबर हैं जिस के प्राथम मार ख महें If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि मैंने भारत सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधि 1. ट्रिक्सी भी प्रश्न के जन्य रिक्सी भी प्रश्न का उत्तर हुँ हैं तो कृपया माग ख महें If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि मैंने भारत सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधि 1. ट्रिक्सी पत्री किरने योग्य खाते /अन्य रिपोर्ट पर खात का मृत्याकन/ वर्गीकरण प्रमालित हो / Icertify that the information stated in the account to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material infor account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise. 3. मैं समझता /समझती हूं कि मैं सीकार करता हूं और अधिकृत करता हूं कि इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनेयम के नियमों और सरकार द्वारा जारी देशानिक में केंद्रीय प्रत्यक कर बार्ड सीबीडीटी या अन्य सरकारी एजिसमों के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनेयम एफएटीसीए और सामान्य रियोर्टिंग मानकों सीआएस understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of I Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations	साग की / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth पाष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या तिकार विकार विक								
a. ब्या आप मारत के अलाग किसी अन्य देश के प्राणिक हैं, जिसमें पीन कार्ड भी शामिल हैं? b. बरा आप मारत के अलाग किसी अन्य देश के प्राणिक हैं, जिसमें पीन कार्ड भी शामिल हैं? c. बया आप कारत के अलाग किसी अन्य देश के प्राण्ड के अलाग कोई देश हैं? ls your Country of birth is any country other than India? c. बया आप कारत के अलाग किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. या आपके प्राण्ड के अलाग किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. या आपके प्राण्ड के अलाग किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. या आपके प्राण्ड के मार्थ के अलाग किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? d. या आपके प्राण्ड के मार्थ के आपके प्राण्ड के अलाग को हैं हैं। a प्राण्ड के मार्थ के निवासी के मिल किसी अन्य देश हैं। a प्राण्ड के मार्थ के निवासी में प्राण्ड के अलाग को हैं। a प्राण्ड के मार्थ के किसी भी प्रश्न का जतर हों हैं तो कृपया भाग ख मरें। If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि मैंने भारत सरकार के द्वीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधि I certify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे द्वारा ग्रमावित हों / I certify that the information stated in the account to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material infor account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise. 3. मैं समझता/ समझती हूं कि मैं सीक्षिण करता हूं की इसले तहत बनाए गए आयकर अधिनियम के नियमों और सरकार द्वारा जारी दिशानिवर में केंद्रीय प्रत्यक कर बोर्ड सीबीडीटी या अन्य सरकारी एजीसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम एकएटीलीए और सामान्य सियोटिंग मानको सीआएएस पायलिया मानको सीआएएस पायलिया के किस के मार्य खाते के किस के मार्य के किस के मार्य करने अधि वाता कर कुनावान किए गए दस्ती की साम्य साम किस साम के हिंद सिया के किस के मार्य करने अधि वाता कर अनुपालन अधिनियम एकएटीलीए और सामान्य सियोटिंग मानको सीआएएस पायलिया मानको सीआएएस के किस में केंद्रीय प्रत्यक कर बोर्ड मीबीडीटी	साग की / PART B ddress for Tax Residence शहर/City के भीतर जन्म स्थान / place of birth पाष्ट्रीयता/Nationality त कर पहचान संख्या Tax identification number* स्वित भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है। ia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this it opening form and supporting documentary evidence provided by me is mation/document that may affect the assessment/categorization of the it के अनुसार आवासीय स्थिति और / या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर मेरे खाते के संबंध और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन वैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। e guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon ny account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct ents (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and riena होने पर 30 दिनों के भीतर फ़ाइल को प्रकट करने और रीसेट करने के अधिकार के तहत होगी।। d Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not gif विषय वस्तु में मुझे बुलाया गया है। / Lagree to furnish any particulars/information bject matter herein.								

Capital Small Finance Bank 🎇

| आवेदक-2 Applicant -2 | अनिवासी | भारतीय | NON RE | SIDE | NT
 | | नि | वार
 | ती | RES | SIE | DEN | T |
 | | आं | नेवा | र्घ ग
 | फील | ड | *Fi | eld: | s ar
 | e N | land | dato |
|---|---|---|---|---
--|---|---
---	---	--	--
---	---	---	--
---	---	---	--
--	---		
ग्राहक ID			जन्म स
 | | |
 | Т | | | 1 | |
 | | | |
 | र्गीव | | | $\overline{\Gamma}$ | Т
 | T | T | |
| Customer Id | | | Place of | Birth |
 | | + | +
 | + | + | | | Г | Т
 | KIS | K | Jat | eg
 | oris | sat | lor | ጕ | +
 | + | + | + |
| *जन्म तिथि DOB D D M M | V V V V | + |
वर्ग Marit | L | <u></u> [
 | Та |
न्ल Si | ingle
 | + | _
विव | | | 1/10 | rri
 | | 十 | ۲, |) T - 3
 | | <u> </u> | | | |
 | | | |
| | | | | |
 | | |
 | | _ | _ | | |
 | | | _ |
 | य O1
⊐ | | | |
 | | | |
| *लिंग Gender पुरूष Male | स्त्री Fema | ш | न्नर Trans | _ |
 | | यता N
¬ |
 | | · ' = | ᆜ | भार | |
 | | an | | 누
 | | वद | शा | Ovi | ers
 | eas | | |
| *जातीय श्रेणी Caste category | | General | पछः | ड़ी जारि | ते OBC
 | |] | एस सं
 | it so | | | एस | र टे | t s
 | Τ | | | 4
 | | | | | |
 | | | |
| निवास का देश (कर कानूनों के अनुसार
Country of Residence (as per | | | | |
 | पैन | कार्ड
AN |
 | | | | | |
 | | | | 1
 | | | | |
 | | | |
| ड्राइविंग लाइसेंस Driving License | lax laws) — | | | ٦. | आधा
 | ₹ [| | П
 | Ť | | T | Ť | Ť | Ť
 | Ī | | | il
 | | | F | Re | ce
 | nt | | |
| फार्म 60 । *धर्म । | | | । । ।
ाक योग्यता | A | ADHA
 | | ।
रोजगा | 14

 | | + | | _ | + | \pm
 | | | | 1
 | | | Р | as | Sp
 | or | t | | | |
| Form 60 *Religion | | | lification | |
 | | cupa |
 | L | | | | |
 | | | | 4
 | | | Si | ze | Р
 | ho | to | | | |
| *पिता का नाम
*Father's Name | | | | |
 | | |
 | | | | | |
 | | | |][
 | | | | | |
 | | | |
| *माता का नाम
*Mother's Name | | | | |
 | | |
 | | | | T | T |
 | T | | | 1
 | | | | | |
 | | | |
| *जीवन साथी का नाम
*Spouse Name | | | | |
 | | Ť | Ħ
 | Ť | Ť | T | Ť | Ť | İ
 | Ť | | | iL
 | | | | | |
 | | | |
| विदेशी पता | | | | |
 | | + | \Box
 | $\overline{}$ | \pm | t | Ť | Ť | $^{+}$
 | \dagger | | | il
 | | S | | |
 | | umb | Э |
| *Overseas Address | | | | | +
 | ++ | + | \vdash
 | + | LA | N | | 1 | ЛА
 | Δ . | R | K | 1
 | | | | |
 | | | |
| CITY | PINC | O D E | s | T A | -
 | | |
 | U I | V T | | | - 1 | v1 /
 | ` | . \ | M |
 | ЭВ | 2 | | 1 | E
 | | N | 0 | | |
| भारतीय पता | F I N C | | | TIA |
 | | |
 | | 4 1 | TE | T | |
 | | | IV | -
 | 7 5 | 2 | 1 | - |
 | | IN | U |
| Indian Address | | | | + | +
 | + | + | +
 | \dashv | + | + | + | + | \dashv
 | 4 | | _ | +
 | + | + | + | 1 |
 | | _ | |
| | | | | $\perp \perp$ | $\perp \perp$
 | \perp | | Щ
 | \downarrow | \bot | <u> </u> | \perp | 4 |
 | | | | _
 | | - / | Δ. | N | D
 | M | А | R |
| CITY | PINC | ODE | S | ТА | TE
 | | С | 0
 | U | V T | R | Y | |
 | | | M |
 | DE | | | 니 | Е
 | | Ν | 0 | | |
| ई मेल आइ डी Email ID | | | | |
 | | |
 | | | | A
an | re y
त्या अ | गप राज
 | जनीत | कि रृ | lly E:
प से | xpos
उजाग
 | sed P
ार व्यव | erso
क्त ि | on (F
(पीईर्प | f) 背: | या का
 | सी से | d to o
संबंधि | one
ते है |
| *आय चरम Income Slab: | লাख
0-2 Lac | >2 | लाख
2-5 Lac | |
 | >5 | लाख
5-10 l | _ac
 | | | | >1 | 0-2 | 25
 | _{লাভ}
La | | |
 | | | > | 25 | लाख
La
 | C | | | | |
| *आय के साधन वितन | | ऱ्यापारिक <u>अ</u> | | कृषि |
 | | नेवेशि |
 | | Г | | कि | |
 | | अन | य
ners |
 | | | | |
 | ब्रें
ecify | | |
| *Source of Funds Salary 5. 100 लाख | | Business Ind
ह 100 लाख | come <i>म</i>
से 200 लाख | Agricultu
व तक | ure _
 | _ | estmer
5.200 र |
 | |
0 लाख | | Ren
क | ıtaı |
 | ┙, | Ju | iers | •
 | \vdash | = | | | |
 | श्टाापु
ब उ | | |
| *Net Worth Upto Rs. 1 | 00 Lac | Above Rs. | . 100 Lac t | o 200 l |
 | — А | bove | Rs. 2
 | 00 L | ac To | 50 | | ac |
 | | | |
 | | | | |
 | | 0 La | ac |
| * सी के वाई सी नया New | मौजूदा कोई | परिवर्तन नह | हीं 🔲 | मीज | 3+
 | ~ ^ | |
 | े तार्र | सी नं | बर | | Т | \top
 | \top | Т | |
 | | | Т | Т | Т
 | | Т | |
| | Existing I | No change | , | Fxisting | ाूदा में प
Undat
 | रिवर्तन
te chan | ige | | | |
 | , | | | | |
 | \perp | | |
 | | | \perp | |
 | | | _ |
| *CKYC | | No change | <u> </u> | Existing | g Updat
 | te chan | | С
 | KYC | No. | | IDIV | VIII |) III A
 | \T\ | | | |
 | | | | |
 | | | |
| भाग 👃 | FATCA/CR | ऽ घोषण | e | Existing
ATCA/ | CRS D
 | te chan | | С
 | KYC | No. | | IDI | | DUA
 | | PA | RT I | В
 | | | | |
 | | | |
| a. वया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश
Are you Citizen of any country other | FATCA/CR
PART A
हे नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन | ऽ घोषण | e | Existing
ATCA/ | CRS D
 | te chan | | C
ON F
 | KYC
OR | No. | (IN | | 37 | ाग व
 | बी / | | | |
 | | | | |
 | | | |
| a. aया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Carr | FATCA/CR
PART A
हे नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन
han India
!)?
अलावा कोई देश | इ घोषण
कार्ड भी शामिल
ह है? | ि पत्र F/
हा Yes | Existing | CRS D
 | te chan | RATI
वास के f | C
ON F
लेए पत
 | KYC
OR | No. M - | (IN | | a-lence | ाग ः
 | बी /
इ | शहर | /City | |
 | place | of b | irth | |
 | | | |
| a. वया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश
Are you Citizen of any country other
(dual/multiple) (including Green Car
b. क्या आपका जन्म देश भारत के
Is your Country of birth is any c | FATCA/CR
PART A
हे नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन
han India
i)?
अलावा कोई देश
puntry other than i | इ घोषण
कार्ड भी शामिल
कहें?
India? | ि पत्र FA
हा Yes
है? | Existing | CRS D
 | DECLA कर निव देश/ Co | RATI
वास के f
ountry_
ज देश/C | C
ON F
लेए पता
 | KYC
OR | No. M - | (IN | | a-lence | ाग ः
 | बी /
इ | शहर. | /City
न स्थ |
गन /
 | | | irth | |
 | | | धन का |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश . Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c | FATCA/CR
PART A
हे नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन
han India
1)?
अलावा कोई देश
ountry other than !
। अन्य देश के कर
ntry/lies other than | ड घोषण
कार्ड भी शामिल
ा है?
india?
निवासी हैं?
India? | T U77 F/ | Existing | CRS D
 | DECLA कर निव देश/ Co जन्म क Source | RATI
वास के f | CON F
 | KYC
OR
T/Add
of Bir | No. | (IN | Resid | lence | ाग ः
 | बी /
र
गीतर | शहर
जन्म
रा | /City
H स्थ
म्ह्रीय | ान /
।ता/N
 | ations | ality | ₽å | usz | गन
tific
 | दस्त | ावे ज | |
| a. aया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care Is your Country of birth is any c au आप भारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY cou dual which are you Tax resident of ANY cou dual which are you that are which are the whi | FATCA/CR PART A 5 नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन han India अलावा कोई देश ountry other than i अन्य देश के कर trry/lies other than tक है जिसका पता भ | कार्ड भी शामिल
or है?
india?
निवासी हैं?
India?
iva से बाहर है | T U77 F/ | Existing | CRS D
 | DECLA कर निव देश/ Co जन्म क Source | RATI ountry | CON F | KYC
OR
T/Add
of Bir
 | No. | (IN | Resid | lence | के भ
 | बी /
र
गीतर | शहर
जन्म
रा | /City
H स्थ
म्ह्रीय | ान /
।ता/N | ations
 | ality | ₽å | usz | गान | दस्त
 | ावे ज | |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश 'Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आप भारत के अलावा किसे Are you Tax resident of ANY cou d. bo you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता | FATCA/CR FATCA/CR े नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than I अन्य देश के कर ntry/lies other than क है जिसका पता भ nolder who has au या टेलीफोन नंब | s घोषण
कार्ड भी शामिल
i है?
india?
निवासी हैं?
India?
iva से बाहर है
address | UA F/
 El Yes
 El Yes
 El Yes
 El Yes
 El Yes
 El Yes | Existing | CRS D
 | DECLA कर निव देश/ Co जन्म क Source | RATI ountry | CON F
 | KYC
OR
T/Add
of Bir | No. | (IN | Resid | lence | के भ
 | बी /
र
गीतर | शहर
जन्म
रा | /City
H स्थ
म्ह्रीय | ान /
।ता/N
 | ations | ality | ₽å | usz | गान
 | दस्त | ावे ज | |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश ' Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आप भारत के अलावा किस्से Are you Tax resident of ANY cou au आपके पास पीओए या मैंडेट झा Do you have POA or a mandate outside India? | FATCA/CR PART A 5 नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन han India 3 अलावा कोई देश ountry other than i अन्य देश के कर कर हैं जिसका पता भ nolder who has an या टेलीफोन नंब mber outside India i उत्तर हाँ हैं तो | इ घोषण
कार्ड भी शामिल
ह है?
India?
निवासी हैं?
India?
Iva से बाहर है
address
र है। | पत्र F/ हा Yes है? | Existing | CRS D
 | DECLA कर निव देश/ Co जन्म क Source | RATI ountry | CON F
 | KYC
OR
T/Add
of Bir | No. | (IN | Resid | lence | के भ
 | बी /
र
गीतर | शहर
जन्म
रा | /City
H स्थ
म्ह्रीय | ान /
।ता/N
 | ations | ality | ₽å | usz | गान
ttific
 | दस्त | ावे ज | |
| a. बया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care Is your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आप भारत के अलावा किस Are you Tax resident of ANY cou outside India? d. बया आपके पास पीओए या मैंडेट झा Do you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abor | FATCA/CR PART A ठे नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than outry other than outry/lies other outry/lies outry/lie | इ हो पण कार्ड भी शामिल ह है? India? निवासी हैं? India? Iva से बाहर है address र है । कुपया भाग र | ि पत्र F/
हा Yes
है?
है?
ख मरें । | ATCA/ | CRS D
 | te chan ECLA कर निव देश/ Co जन्म क Source कर Co | RATI alt के f ountry | C
ON F
लए पता
Country
h
H का | KYC
FOR
of Birrick
 | No. M - dress for th_ ency | · Tax | Resid | भ
elence | ति प
के प
हचान्
entif
 | बी /
इ
गीतर
न सं | णन
जन
रा
ख्य | ('City
। स्थ
पष्ट्रीय
I | ा।ान / | lationa
-*
 | ality | कर
Fax | पहर
iden | tific | atior
 | ावेज
i Doc | cume |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care ls your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आप भारत के अलावा किस Are you Tax resident of ANY cou dustide India? d. क्या आपके पास पीओए या मैंडेट घा Do you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the about I. मैं ——————————————————————————————————— | FATCA/CR PART A ठे नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन than India)? अलावा कोई देश ountry other than out देश के कर intry/lies other than out है जिसका पता भ oulder who has an au टेलीफोन नंब mber outside India i उत्तर हाँ है तो re questions is a "Y भारत सरकार केंद्रीय! | s El पण कार्ड भी शामिल ह है? India? निवासी हैं? Irda से बाहर है address र है । कुपया भाग र ES' please fil | | Existing ATCA/(ना । | CRS D
 | कर निव
कर निव
देश/ Co
जन्म क
Source
कर
Co | RATI ant के f ountry_ or derive of Wealth of Farry untry of | CON F
 | KYC
FOR
I/Add
of Bir
देश
resid | No. II - III - II | · Tax | Resid | भ
lence
! पह
x ide | _के म
 | बी / | राहर
जन्म
राख्य
tion | /City
न स्थ
जिल्ह्यीय
T
num | गान /
गता/N
nber | ationa
-*
 | ality | कर
Fax | पहच
iden | tific
ग्नी 1 | atior
 | ावेज
1 Doc | cume |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care b. क्या आपका जन्म देश भारत के is your Country of birth is any c c. क्या आपका पारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY cou d. क्या आपके पास पीओए या मैंडेट झा Do you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता हि Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abo' 1. मैं ——— प्रमाणित करता हूं कि मैंने I certify that I have declared my s regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में | FATCA/CR FATCA/CR PART A े नागरिक हैं जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than I अन्य देश के कर ntry/lies other than क है जिसका पता भ holder who has या टेलीफोन नंब holder सहें हैं तो 'e questions is a "Y HITCH सरकार केंद्रीय ! catus as per applic दी गई जानकारी और मै | कार्ड भी शामिल कार्ड भी शामिल हैं? India? Tran से बाहर है address र है । puul भाग र ES' please fil स्टक्ष कर बोर्ड cable FATCA/ रे द्वारा प्रदान कि | ि पत्र F/ हा Yes है? | ATCA/(ना । नियासिक | g Updat CRS □ No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 | कर निव
केर निव
देश/ Co
जन्म क
Source
कर
Co | RATI ant के f puntry | CON F one of the control of the co | KYC FOR I / Add of Bir देश resid
 | No. M - dress for dress for dress for children dress for dress fo | (IN | कर
Ta:
i लाग् | म
ए पह
x id | ागः _के भ | बी /
इ
गीतर
न संगंदकां
ऐसी
 | ्राहर
जन्म
राख्य
ion | /City
प्रस्ति स्था
प्रमूतिया
T
nun
(CB | ाान /
ग्राता/N
nber
सस नि
BDT) | iationa
-*

 यमों व
 /Res | ality
के अ
 | कर
Гах

 | पहर
iden
र अप
ank | tific
प्रनी f
of li | रेथिति
ndia | ावेज
Doc
घोषि
(RBI)
 | cume
ोत की
) in t |
| a. बया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care is your Country of birth is any c c. क्या आप का जन्म देश भारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY cou outside India? d. बया आपके पास पीओए या मैंडेट घा Do you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता है कि मार के परिकार किसी प्रश्न क If your answer to any of the about 1. मैं ——————————————————————————————————— | FATCA/CR FATCA/CR PART A 5 नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन han India 1)? अलावा कोई देश ountry other than or हैं जिसका पता भ ounder who has an au टेलीफोन नंब mber outside India ा उत्तर हाँ हैं तो re questions is a "Y भारत सरकार केंद्रीय ! atus as per applic दी गई जानकारी और में खाते का मुल्यांकन/वा वितित्त वित्त नंवा | s El पण कार्ड भी शामिल ह है? India? निवासी हैं? India? Itत से बाहर है address र है । कृपया भाग र ES' please fil Itत्यक्ष कर बोर्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रदान किए किएण प्रभावित ह | ा पत्र F/ हा Yes है? | Existing ATCA/(चा चि | g Updat
 | te chan FCLA कर निव देश/ Co जन्म क Source कर् Co प्राप्ति विश्व हिंदि कर्मा क | RATI ountry of Wealth र निवाः र निवाः vernme | CON F ON F one of I | KYC FOR
I / Add of Bir cesid | No. M - dress for th ency and continue dress for th dress for | (IN | Resid | म
e पह
x id | ागः _के भ
 | बी / | ्ण
जन्म
राख्य
ion
स्वीअ
xes
कोई | /City/City
न स्था
प्रष्ट्रीय
T
num
(CB
भी म | ग्रान /
ग्राता/N
nber
RBDT)
 | ation:
-*
।/Res
पूर्ण जा
nent | ality
के 3
serv | कर
Fax | पहर
iden
र अप
ank | tific
ਪ੍ਰਜੀ ਹਿ
of lu
e p
 | ation
रेथिति
ndia
rovio | चिज
Doc
(RBI)
पाया है | in की
) in t |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश । Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आपका भारत के अलावा किसी अप ते से अलावा किसी Are you Tax resident of ANY country of birth is any c d. bo you have POA or a mandate outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu are supposed of the about the supposed of | FATCA/CR FATCA/CR PARTA े नागरिक हैं जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than I अन्य देश के कर ntry/lies other than nolder who has an या टेलीफोन नंब nober outside India । उत्तर हाँ है तो नंख questions is a "Y भारत सरकार केंद्रीय! दो गई जानकारी और में खाते का मृत्यांकन / वा belief true, corre- t/Other Reportab | कार्ड भी शामिल कार्ड भी शामिल कार्ड भी शामिल कार्ड भी शामिल हिंदी कार्ड भी शामिल कार्ड | प्रत्र F/ हा Yes है? च भरें । । Part B सीबीडीटी भारत (CRS rules in ए गए समर्थन दस्स् | ATCA/(ना । | हुँ Updat
CRS II
No
च
च
बैंक आरव
in notified
au मेरे सर्वोत्त्
informa
not with | echan ECLA कर निव देशा/Co जन्म क Source कर् Co If by Government of the state
 | RATI muntry n देश / Co of Wealth रा इस सं रा इस सं cered in tl | COUNTRY Country म का अनु | KYC
FOR
I / Add
of Bir
de aresid
will will will a
will will a
count
form | No. M - dress for th ency चित भाग /Centr | (IN
 | कर
Ta:
i लाग्
ooard
r पूर्ण i | म्
dence
ह पह
x idd
dof[
है औ | क र्म
क र्म
इचान्
Sentif
V मैंने
Usup
that | बी /
श्रीतितर
स्तिए :
ctTa.
ऐसी
oppor | राहर
जन्म
राख्य
ion
सीअ
xes
कोई
rtin
 | /City
न स्था
प्रिया
I
nun
(CB
भी म
g do | ाता/N
nber
RBDT)
महत्वप
ocur
t the | यमों र
//Res
पूर्ण जा
nent
e ass | के अ
serv | नुसा
re B
री /
evi
 | पहच्च
iden
र अप
ank
cस्ता
deno | uffic
of li
oce p | स्थिति
ndia
rovio
goriz | चोषि
(RBI)
पाया है
 | eume
वेत की
) in t
है जि
oy m |
| a. बया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care b. क्या आपका जन्म देश भारत के is your Country of birth is any c c. क्या आप भारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY cou d. बया आपक पास पीओए या मैंडेट धा Do you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता हि Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abor 1. मैं ——————————————————————————————————— | FATCA/CR FATCA/CR PART A 5 नागरिक हैं जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than I अन्य देश के कर ntry/lies other than का है जिसका पता भ ouder who has an all टेलीफोन नंब noter हाँ हैं तो e questions is a "Y hirth सरकार केंद्रीय ! atus as per applic दी गई जानकारी और मे खाते का मूल्यांकन / वर belief true, corret t/Other Reporter और अधिकृत करता हूँ दि कारी एजेंसियों को विदे | कार्ड भी शामिल ह है? India? निवासी हैं? India? प्रता से बाहर है address र है । कुपया भाग र ES' please fil प्रत्यक्ष कर बोर्ड able FATCA/ रे द्वारा प्रदान कि किंकरण प्रभावित ह ct and compl le account on b इसके तहत बन भी खाता कर अनु। | पत्र F/ हा Yes है? चा भरें। ॥ Part B सीबीडीटी भारत (CRS rules in ए गए समर्थन दस्त ो / I certify t lete and that r otherwise. पर गए आवकर अ | ATCA/(ना निय रिजर्व India as तावेजी साक्ष्म that the i t I have I | ëta आरह
वेंक आरह
notified
य मेरे सर्वोत्त्र
informa
not with
 | ECLA कर निव देश/ Co जन्म क Source For all by Gov तम ज्ञान अं tion stat held an | RATI puntry party party party party party party quantry | CONN F लेए पत ountry h स का न के अनु ne acccertail in ो दिशानि | KYC T / Add of Birr देश resid while सू ount form
 | No. M - dress for th ency capacitation draw सही | (III)
- Tax
रत मे
ral b
ing f
/doo | कर
Ta:
i लाग्
ooarc
i पूर्ण i
oorm
cume | म्
dence
ह पह
g एफ
(एफ
dof
(on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
o | ाग
के में
इचान्द्रिश
Direc
प मैंने
d sup
that
 | बी /
हीतर
मार्चाद्वां
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हि
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हि
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह | ्राहर
जन्म
राख्य
ion
सीअ
xes
कोई
rtin
y a | /City
ा स्था
प्रिक्टीय
I num
(CB
भी म
g dc
ffect
समें f | ाान /
ग्रता/N
nber
स नि
BDT)
निर्धापि
निर्धापि | ation: -* -* -*
 | के अ
serv
Transessers
न्य म | नुसा
re B
री /
evi
me | पहच्च
ve अप
ve ank
cetani
deno
nt/c | मनी [†]
of li
ce p
ateg | स्थिति
स्थिति
ndia
हीं धि
rovid
goriz
ए पर में
 | चोषि
(RBI)
पाया है
बेded b
ation
पेर खार्ल | सेत की
) in t
है जि
oy me
ते के र |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश 'Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आप भारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY cou au आपके पास पीओए या मैंडेट झा Do you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abo' 1. मैं ——————————————————————————————————— | FATCA/CR FATCA/CR PART A 6 नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than I 1 अन्य देश के कर ntry/lies other than rea है जिसका पता प nolder who has an या टेलीफोन नंब nber outside India 1 उत्तर हाँ हैं तो 1 ल questions is a "Y HIYत सरकार केंद्रीय ! iatus as per applic दी गई जानकारी और मे belief true, corre- t/Other Reportab और अधिकृत करता हैं दिर्म horize that as per | कार्ड भी शामिल है है India? निवासी हैं? निवासी हैं? परत से बाहर है कर्मया भाग स ES' please fil निवास कर बोर्ड के हारा प्रदान कि के हारा प्रमावित ह t and comple account or b इसके तहत बन मी खाता कर अनुस the provision | प्रत्र F/ हा Yes है? हा Yes हो / Icertify t lete and that r otherwise. Ity गए आयकर 3 हो मार्याल अधिनियम rs of income | ATCA/(ना निय रिजर्व India as तावंजी साक्ष that the i t I have i | g Updat
 | ECLA कर निव केर निव वेशा/ Co जन्म के Source के So | RATI alt के f puntry ा देश / (c) र श्वाधी | C C ON F e e e e e e e e e e e e e e e e e e | KYC T/Add of Bir देश resid Hधिसू India सार, र ount form the g | No. M - dress for th ency चित भार /Centr openiation/ के अनुसा
 | (III)
- Tax
रत मे
ral b
ing f
/doo
ing sसी त | कर
Ta:
i लाग्
ooard
cume
aासीय
ve र्क | म्
ed k | ाग :
_के र्म
_के र्म
Direc
v मैंने
d sup
that
in a अं
ई अन्य | सीए : सीए : ऐसी
oppor ma | राहर
जन्म
राख्य
ion
स्रीअ
xes
कोई
rtin
y ai | "City
प्रस्ति स्था
प्रमुख
(CB
भी म
g do
ffect
समें f
के 3 | सान /
nber
R नि
BDT)
महत्वप
ocur
t the
निर्धापि
माधीन | ation: -* -* -*
 | के अ
serv
ानका
ary
sess | नुसा
re B
री /
evi
me
iनदंख | पहच्च
iden
र अप
ank
दस्ता
deno
nt/c | मनी विज न
बेज न
ateg | स्थिति
ndia
rovio
goriz
ए पर में
करनी
 | चोषि
(RBI)
पाया है
ded b
ation
i पड़ र | हे जि
है जि
के र
ते के र
सकती |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के is your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के ति अलावा किसी Are you Tax resident of ANY cou d. bo you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता हि Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क if your answer to any of the about the telephone in the properties of the properti | FATCA/CR FATCA/CR PARTA के नागरिक हैं जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than I अन्य देश के कर ntry/lies other than no के हैं जिसका पता क है जिसका पता या टेलीफोन नंव holder who has an her outside India I उत्तर हाँ है तो 'एव questions is a "Y सारत सरकार केंद्रीय ! :atus as per applic दी गई जानकारी और मै खाते का मूल्यांकन/या better true, corre te/Other Reportab और अधिकृत करता हूं दि कारी एजेंसियों को विदेः horize that as per r criteria stipulate t Agencies to corr | कार्ड भी शामिल निवासी हैं? India? TYRA से बाहर है address र है। कुपया भाग र कुपया भाग र क्रिश्चाल कर बोर्ड cable FATCA/ रे द्वारा प्रदान किर् केर्यारा प्रदान किर किरण प्रमावित ह cable FATCA/ केर्यारा प्रदान किर किरण प्रमावित ह cable FATCA/ केर्यारा प्रदान किर किरण प्रमावित ह cable FATCA/ केर्यारा प्रदान किर केर्यारा प्रमावित ह | पत्र F/ हा Yes है? च मरें । Part B सीबीडीटी भारत CRS rules in ए गए समर्थन दस्सें / I certify t lete and that r otherwise. ।।ए गए आयकर अ पालन अधिनियम ss of income e Bank may l obligations a | ATCA/(ना निय रिजर्व India as तावेजी साक्ष tt I have I अधिनियम के एफएटीसीए | बँक आरह
notified
च मेरे सर्वोद्ध
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
informat
infor | ECLA कर निव देश/ Co जन्म क Source कर Co वैभी आई द्वाप्त by Gov तम ज्ञान अँ tition stat held an it सरकार ray रिपोर्टि nade the | RATI ant के f buntry n देश (7 wealth र निवार रा इस सं vernme iv विश्वार iv विश्वार iv विश्वार iv anti- iv ant | CON F
लिए पता
त्विष् पता
विष्यामिक का
मार्च में अ
मार्च में अ
म | KYC T/Add of Bir देश resid Hधिसू ndia सार, र ount form the g | M - dress for th ency चित भाग /Centi ation/ s के अनुसाह | (III)
- Tax
रत मे
rral b
ing f
/doc
ing sसी त | कर
Ta:
i लाग्
ooard
r पूर्ण i
orm
anसीय
ve क | म्
ed k
s pe | ाग :
_के र्म
_के र्म
टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्स्टिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्स | सीए ः
ऐसी
ppor
ma
ice Go
e pro | राहर
जन्म
रख्य
ion
सीअ
xes
कोई
rtin
y ai
areal
ove | (City
प्रस्ति स्था
प्रमास
(CB
भी म
(CB
समें f
के 3 | ताता/Naber Ration R | यमों र
/Res
पूर्ण जा
ment
e ass
रेत अन्द | को अ
के अ
serv
ानका
cary
sess
न्य म
को वि | नुसा
re B
श्री /
evi
me
नदंखरण
the | पहच्च
iden
र अप
ank
arkden
nt/c
ont/c | मनी विकास
of li
of see p
ateg
ser, c | ation स्थिति rovid goriz ए पर में करर्न | घोषि
(RBI)
पाया है
ded b
ded b
i पड़ र
endin | in की
jin t
jin t
है जि
के र
सकती
ng up
f Dire |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश । Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c d. क्या आपका पारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY country of the Any country of | FATCA/CR FARTA े नागरिक हैं जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश bountry other than I अन्य देश के कर ntry/lies other than an देश के कर ntry/lies other than an देश के कर ntry/lies other than an देश के कर antry/lies other than an देश के कर ntry/lies other than an देश के कर antry outside India a उत्तर हाँ हैं तो re questions is a "Y hirth सरकार केंद्रीय ! attus as per applic d गई जानकारी और में खाते का मूल्यांकन/वर belief true, corre t/Other Reportab और अधिकृत करता हूं हि कारी एजीसियों को विदे horize that as per criteria stipulate t Agencies to com 5) and/or any oth | कार्ड भी शामिल है है India? निवासी हैं? India? पर से बाहर है बिक्ट मार्ग से हिंदे हिंदे कुपया भाग से ES' please fill प्रत्यक्ष कर बोर्ड able FATCA/ रे द्वारा प्रदान किए रिकरण प्रमावित है देव and comple le account of a sex के तहत बन भी खाता कर अनु the provision of therein, th uply with the er similar arr: | प्रत्र F/ हा Yes है? हा Yes है? हा भरें । Il Part B सीबीडीटी भारत CRS rules in ए गए समर्थन दस्स हों / I certify t lete and that r otherwise. Ill run मार्थन दस्स हों ने I certify t lete and that r otherwise. Ill run आयकर 3 पालन अधिनियम ns of income e Bank may l obligations i angements. | ATCA/(ना । | g Updat
 | ECLA कर निव वेशा/Co जन्म क Source From Source कर Co तम ज्ञान अं tition state held and two and the state held and the state and covern | RATI ant के f bountry c of Wealth र निवार untry o र हस सं vernme grund r मानको r मानको recunded is in recumental | COUNTY लेए पत ंच्या में 3 स का में Tax i म के अनु e accurrial in दिशान्ति सीआरए er and Agree | KYC T / Add of Bir देश resid Hधिसू India सार, रे count form the g men
 | No. M - dress for th ency acade भाग copenination/ y या इ guideli y accoots (IGA | (III)
- Tax
रत में
रात में
शो और
शो ति
शो आर
शो ति
शो आर
शो अ
शो अ
शो अ
शो अ
शो अ
शो अ
शो अ
शो अ | कर Ta:
i लाग्
jooard
orm
cume
aासीर
रह क्र | प्पार्थ (एएर | ाग ः
क र्म
क र्म
Searchiff
Jirec
ए मैंने
प्र मैंने
प्र अन्द
श्रिक्त
प्र प्र सिक्त
प्र प्र सिक्त
प्र प्र प्र प्र सिक्त
प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र | सीए ः संग्रह्मा सीए ं स्वार्थित सीए ं स्वार्थित सीए ं स्वार्थित सिंप्य स्वार्थित
स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य | ्राहर
जन्म
राख्य
ion
स्तीअ
xes
कोई
rtin
y ai
real
ove
esc | /City
म स्थ्र
प्रमास
(CB
भी म
g dc
ffect
समें f
के अ
rnm
ribe | तान /
गता/N
mber
सहत्वप
ocur
t the
निर्धापि
माधीन
nent | यमों र
/Res
पूर्ण जा
ment
e ass
रेत अन्
। बैंक र
। हैंक TRBI | ality
के अ
serv
ानका
ary
sess
न्य म
को वि
l in t
 | नुसा
e B
evi
me
inace
inace
the | पहरू
iden
र अप
ank
दस्ता
की f
matt | मानी विकास के किया कि ा | स्थिति
स्थिति
rovida
goriz
ए पर में
कर्रा
depe | चोषि
(RBI)
पाया है
ded b
ation
rendinard of
 | हि प्राप्त
है जि
के र सकती
ng up
f Dir
CA) a |
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश । Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c d. क्या आपका भारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY country of birth is any c e. क्या आप भारत के अलावा किसी Do you have POA or a mandate outside India? e. मारत के वाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abort Is Your address or telephone nu 1. मैं ———————————————————————————————————	FATCA/CR FA	कार्ड भी शामिल कार्ड भी बाहर है address र है। कुपया भाग में ES' please fil acuala कर बोर्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कॉकरण प्रमावित है :able FATCA/ शे द्वारा प्रवान कि कॉकरण प्रमावित है :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कॉकरण प्रमावित है :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बोर्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बोर्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रवान कि कार्यक्ष कर बार्ड :able FATCA/	हा Yes हा Yes है? हा Yes है? हा Yes है? हा भरें। हा Part B सीबीडीटी भारत CRS rules in ए गए समर्थन दस्त हो / I certify t lete and that r otherwise. пए गए आयकर 3 पालन अधिनयम ss of income e Bank may l obligations a doubligations a thin 30 days a	ATCA/(ना ना निय रिजर्व India as तावेजी साक्ष t I have to t Ray Para Actor have to r as per th दान किए ग any chan	बँक आरह notified य मेरे सर्वोच्चा विकास मेरे स्वास मेरे स्व	ECLA कर निव केश / दिव केश / द	RATI ana के f ountry o देशा (o Wealth र निवार untry o र विश्वार स्वार विश्वार प्रविद्यार	CON F लिए पत लिए पत country h स का विध में 3 लिए पत विधानि सिशानि सीआएए er and pect c Agree प्रमाण प	KYC T / Add of Bir देश resid hull the general stress of my the general stress of my emen	No. M - Iress for Inency चित भाग /Centr openiation/ s अनुसा y /या इ uuideli y accounts (IGA ara होने	(IN - Tax रत मे रत मे शं और fing for lines unt a unt	कर Ta: i लाग् ooard orm cume anसीय ve के issu (s) as resp	म् ए पह र पह इ x idd dof[and ent i को ed k	ाग ः क र्म इचान्द्र्ह्मार्ग Direct पर मैंने d sup that in a अ ई अन्द्र्र्ण ther the t of F	बी /	र्शाहर. जन्म रख्य खांon सीअ xxes कोई rtin y and graven esc esc esc esc esc	(City_n स्था प्राप्ति प्रमाणिक भी म g do ffect के अ rnm ribe Acc	सान / nati/Naber सिक्टिंग सहत्वप महत्वप निर्धाा सिक्टिंग सिक्ट सिक्ट सिक्टिंग सिक्टिंग सिक्टिंग सिक्ट	यमों र /Res ग्रिल अन् । बैंक र रित अन् । बैंक र रित अन्	के 3 serv	नुसा re B शै / evi- me नदंड वेवरण the	पहरू iden र अप dend nt/c i की f matt e Cer plia	मिनी विकास के किया कि ा	ation स्थिति ndia हीं छि rovid goriz ए पर में करनी	घोषि (RBI) पाया है ded b atior i पड़ र endin ird of (FATC	हिप्पालe मेत की) in t है जि न of t सकती ng up f Dira CA) a
a. ब्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. बया आपका जन्म देश भारत के is your Country of birth is any c c. बया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Tax resident of ANY cou d. ब्या आपके पास पीओए या मैंडेट धा Do you have POA or a mandate outside India? e. थारत के बाहर का आपका पता हि भें में I s Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abo' 1. मैं ———— प्रमाणित करता हूं कि मैंने I certify that I have declared my s regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते /अन्य रिपोर्ट पर to the best of my Knowledge and account at a US Reportable account a	FATCA/CR PARTA हे नागरिक हैं जिसमें यीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than I ा अन्य देश के कर ntry/lies other than का है जिसका पता भ holder who has no चा टेलीफोन नंब holder who has a चा टेलीफोन नंब में हैं तो 'ए questions is a "Y भारत सरकार केंद्रीय i स्वार्त का मूल्यांकन / वर्ग belief true, corre- दी गई जानकारी और मे खाते का मूल्यांकन / वर्ग belief true, corre- t/Other Reportab और अधिकृत करता हैं ि कारी एजेंसियों को विदेश horize that as per r criteria stipulate t Agencies to com 5) and / or any oth मेरे द्वारा हरताक्षरित जा dovided by me or if	कार्ड भी शामिल ह हैं? India? त हैं? निवासी हैं? India? पत से बाहर है address र है । क्रिप्या भाग र ES' please fill प्रियक्ष कर बोर्ड cable FATCA/ रे द्वारा प्रवान किर् रोकरण प्रमावित ह ct and comple le account or b इसके तहत बन भी खाता कर अनु the provision d therein, th ply with the er similar arra- नकारी के साथ— r- नकारी के साथ— r- कारी के साथ— r- r- कारी के साथ— r-	हा Yes है?	ATCA/ चा कि तीय रिजर्व India as तावेजी साक्ष्म that the i t I have I अधिनियम के एफएटीसीए Tax Act, have to r as per th ar chan incorrect में मुझे ज्ञात	बँक आरब वैंक आरब notified य मेरे सर्वोद्ध informa not with है नियमों औ र और सामा Rules m report the inter- ity दस्तावेख gges that t.	ECLA कर निव वेशा/Ca जन्म क Source For a source To	RATI puntry n देश (7) कि Wealth रा इस सं vernment रि विश्वार सानकों रा मानकों ग मानकों हारा जारि हारा जारि हारा जारि हारा जारि य मानकों से का कुर	CON F लेए पता ंच्या में अ लंध में अ	KYC FOR IT/Add of Birr देशा resid India सार, र ount form form ad शा हिस्स औ हिसस	No. M - dress for th ency चित भा /Centr ation/ s अनुसा / या इ guideli accou ts (IGA तत होने	(IN -Tax रत मे रत मे शि और ing f /doc ines unt पर 3 oon p	Resid	म् (एए: x id dof[एए: t को and ent: u स्था dec	क र्म क र्म इच्चान्- entiff Direct र मैंन that that that that that that that	सीए : संग्रेटकार्ग सीए : ऐसी oppor ma iv / र e Gre e Gre e Fore	्राहर. जन्म राख्य ion स्तिअ xxes कोई, rtin, y an aveu esc esc eign	/City न स्था प्रिकास प्रिक्ट भी म g do ffect समें f के अ rnm ribe Acc	ान / Jani/N nber सहत्वप BBDT) निर्धाा Hilled foctour कट र coor	ययमों र /Res पूर्ण जा nent e ass रेत अन् । बैंक र रेत अन् । बैंक र अन् । बेंक र अन् । बेंक र अन् । बेंक र अन् । बेंक र अन् । बेंक । अन् । अन् । अन । अन् । अन । अन । अन । अन । अन । अन । अन । अन	ality के 3 serv ानका ary sess च्या म को वि I in t t to ax (नुसा नुसा e B री / evi me he com	पहच् <mark>ताden</mark> ए अप ank दस्ता deno t/c : Cer plia करने करने	मिर्मा विकास के आधार	ation रिधिति रिधिति रिधिति रिधिति रिधिति रिपिति	चोषि (RBI) पपाया है पे खात ने पड़ र पित्र (FATC चारी ले y me	aid की) in t है जि के र र सक्ती किता हूं as w
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश 'Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश 'Are you Tax resident of ANY cou day outside India? e. बारा आप भारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY cou all shows POA or a mandate outside India? e. बारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu यि उपरोक्त किसी भी प्रश्न के If your answer to any of the above regard. 1. मैं ———————————————————————————————————	FATCA/CR FARTA े नागरिक हैं जिसमें थीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than ! अल्य देश के कर ntry/lies other than other who has an या टेलीफोन नंब mber outside India । उत्तर हाँ हैं तो ार questions is a "Y HITCH सरकार केंद्रीय! attus as per applic दी गई जानकारी और में belief true, corre- t/Other Reportab और अधिकृत करता हूं ि कारी एलेंसियों को विदेस horize that as per criteria stipulate criteria stipulate outside of a supplic and / or any oth मेरे द्वारा हस्ताक्षरित जा clare, disclose and ovided by me or if पेटल स्मॉल फाइनेंस बैंब- se any material fac-	कार्ड भी शामिल है है India? निवासी हैं? India? परत से बाहर है address र है कृपया भाग स ES' please fil मत्यक्ष कर बोर्ड :able FATCA/ रे द्वारा प्रदान किण तै करण प्रमावित ह tt and comple account on b इसके तहत बन गै खाता कर अनु the provision d therein, th ply with the er similar arra- नकारी के साथ- recettify wit any certifica any certifica s को मान्य करने ' tt known to n	हा Yes है? हा Yes है? हा Yes है? हा भरें। हा Part B सीबीडीटी भारत CRS rules in ए गए समर्थन दस्स हो / I certify t lete and that r otherwise. गाए गए आयकर उ पालन अधिनियम ns of income e Bank may l obligations a angements. साथ मेरे हारा प्रव thin 30 days a te becomes i में अभी या मविष्य	ATCA/ ना । निय रिजर्व India as तावेजी साक्ष्म that the it I have it yvvएटीसीए tax Act, have to r as per th दान किए ग any chan incorrect मैं मुझे ज्ञात future, n	g Updat	ECLA कर निव केश / दिव केश / द	RATI ant के f buntry ा देश (-) रा इस सं vernme tr विश्वार tr विश्वार tr विश्वार tr वानका reundr si retain til reundr si retain til reundr si retain til reundr si retain til retain	CON F onv पत ountry h क्षेप्र में तका क्षेप्र में उ क्ष में उ क्षेप्र में उ क्षेप्र में उ क्षेप्र में उ क्षेप्र में	KYC FOR IT/Add of Bir देश resid ndia सार, र ount form the g may ne ray ne and info No. M -	(IN - Tax रत मे रत मे शां क्षी रिवेट पर आ पर 3 oon क्ष	कर Tai i लाग् ooard cume authiz ve क issu (s) as i resp o दिन् orovi	म् Idence ह पह इ x ide (एफ dof! and and and bed k s pe obect dec wall	क र्म क र्म Direct V मैंने I sup that that that that flav Hart Hart Hart Hart Hart Hart Hart Hart	सीए ः ऐसी oppor ma iv द्रिं एंसी oppor ma i प्रति he a Ban	राहर जन्म राहर राहर राहि सीअ रसीअ रसीअ रसीअ राहर वार्ष श्राहर श् श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श् श्राहर श् श् श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राहर श्राह श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श्	(City न स्था प्राप्त (CB भी म g do ffect समें f के के ount	ाान / प्रता/N nber सस नि हित्या महत्वप प महत्वप प स्ति नि हित्य प सहत्वप	ययमां र /Res पूर्ण जा nent e ass रेत अन् हैं के र ट रामाव कार्य हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं	को उर्क अपन को विश्व (Control of the Control of th	नुसा नुसा re B शि / vevi me inace the the com	पहार्वे end ए अप ank दस्ता deno i की f matt c Cer plia over	मिति प्राची विकास किया न cce p pates tier, i thra nce d sign	ation स्थिति स्थिति ndia हीं छि rovid goriz t पर में करने depe	चोषि (RBI) पपाया है स्विचित्र पाया है पाया हिंदि प्रकार हिंदि प्रकार हिंदि प्रकार हिंदि प्रकार हिंदि प्रकार हिंदि प्रकार हिंदि हि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हिंदि हि हि हि हि हि हि हि हि हि हि हि हि हि	aid की) in t है जि के रा कि के र CA) a लेता हूं as w त होंगे	
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c d. क्या आपका पास पीओए या मैंडेट झा Do you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abort 1. मैं ———————————————————————————————————	FATCA/CR FA	कार्ड भी शामिल है है India? निवासी हैं है India? निवासी हैं हो कि के बेंदि है India? प्रत से बाहर है को बेंदि है India? कुपया भाग र ES' please fill acuta कर बोर्ड cable FATCA/ रे द्वारा प्रदान किये कि एम प्रमावित है हर है I I I I I I I I I I I I I I I I I I	पत्र F/ हा Yes है? च मरें । Part B सीबीडीटी भारत CRS rules in ए गए समर्थन दस्से / I certify t lete and that r otherwise. ।।ए गए आयकर उ पालन अधिनियम ss of income e Bank may l obligations a angements. साथ मेरे द्वारा प्रस	तीय रिजर्व तीय रिजर्व तीय रिजर्व India as तावेजी साक्ष that the i t I have to r have to r as per th दान किए ग anincorrect में मुझे ज्ञात future, n he Indiai	बँक आरव प्राप्त विकास बँक आरव गार्तिका विकास व	ECLA कर निव देशा/Co जन्म क Source कर् Co तम ज्ञान अ stion statished an iv सरकार न्य रिपोर्टि nade the ne detai Govern जी साक्ष्य में : may tal willidate m tions fol	RATI ant के f buntry n देश (7 Wealth) र निवार र इस सं र विश्वार र विश्वार प्रा इस प्रा र विश्वार प्रा विश्वार प्रा वा जार्थ प्रा वा जार्थ प्रा वा कोई स्व place प्रा वा खुल प्रा वा चुल प्र	COUNTY के से का में 3 अनु के से का में 3 कि का का कि का का कि क	KYC FOR I / Add of Bir resid kill सू kill	Mo. M - dress for dress for th dress for dress fo	(III) - Tax vत में ral k ing f /doc iness vv 3 oon p मेरे ख	Resid कर Ta: i लाग् poarc ve go i orm cume antiliz (s) as s resp o दिन provi	म् I एफ (एफ (एफ (को) and ed k s pe dec (फंचा ina acti	क र्म क प्रिकार Direct disup that प्रति अँ श्रीतर Hintl लन में on a	सीएः ऐसी oppor ma i प्रति Banns ma	राहर जन्म राहर सीअ xes कोई rtin y an ve esc esc esc k w	(City प्रस्था प्राप्ति (CB भी म g do ffect समें f के अ rnm ribe Acc pi प्रव ount	सान / स्वा/N सान निर्धा महत्वप Document the focument to pool to pool	यमों र -* -* -* 	को अ के अ serv पानका ary sess च्या म को बि Lini to ax O and prop	नुसा re B री / evio me indescom the indescom rm a	ए अप example ank catal and potential and potential	मिर्ना वि of li of sign रिपोर्ट रिपोर्ट स्वाराह्य के आधार रिपोर्ट के आधार के आधार के आधार के आधार के आधार के आधार के कि कि के कि कि के कि कि कि के कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि के कि	स्थिति ndia हीं छि rovid goriz र पर में करनी depe I Boa Act जिम्मे ed b	चोषि (RBI) पाया है ded b atior i पड़ र endin	हे जि है जि होता की शिक्ष के प्राप्त होता है होता है हे बड़ फ हत होंगे
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश । Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c d. क्या आपका पारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY country of the ANY country of the Are you Tax resident of ANY country of the Are you Tax resident of ANY country of the Are you Tax resident of ANY country of the Are your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the about the total outside India? 1. मैं ———————————————————————————————————	FATCA/CR PARTA के नागरिक हैं, जिसमें थीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than i अन्य देश के कर ntry/lies other than i अन्य देश के कर ताम्मारिक अर्था के कर विस्तित्र के अर्थ भारत सरकार केंद्रीय ! अत्य प्रकार केंद्रीय ! अत्य प्रका	कार्ड भी शामिल ह हैं That are the second of the second	हा Yes है? हा Yes है? हा Yes है? हा Yes है? हा भरें।	ATCA/(ना ।	g Updat CRS II Vo पे बैंक आरह notified य मेरे सर्वोत् informat हिनयमाँ औ र और सामा Rules m report the e inter- ir दस्तावेज iges that t. in fayinva in regula श में कानून ither in l	ECLA कर निव कर निव देशा/ दि जन्म के Source कर् देशा/ दि जन्म के Source कर् देशा/ दि जन्म के Source कर् देशा/ दि कर निव है शा/ दि है शा/ द है शा/ दि है शा/ द	RATI ant के f untry n देश (7 or Wealth र निवार र प्रा इस सं vernme it विश्वार it विश्वार it of in the service of the	CON F लिए पत लि	KYC FOR I / Add of Bir I / Add of Bir resid ARIVE ARI	No. M - dress for th ency चित भा /Centr openiation/ s अनुसा / या इ guideli / वर	(III) - Tax रत मे ral b ing f /doc ines ines on p पर 3 on p	Residence of the property of the province of	म् lence ए पह प्रक्र dof[(एफ dof[को and ed k s pec dec triul ina acti	क भ इड्डान्स्ट्रिक्ट Direct एटीर Direct मित अँ ई अन्स्ट्रिक्ट भीतर Hintl लन में nce	सीएः ऐसी oppor ma i प्रति Banns ma	राहर जन्म राहर सीअ xes कोई rtin y an ve esc esc esc k w	(City प्रस्था प्राप्ति (CB भी म g do ffect समें f के अ rnm ribe Acc pi प्रव ount	सान / स्वा/N सान निर्धा महत्वप Document the focument to pool to pool	यमों र -* -* -* 	को अ के अ serv पानका ary sess च्या म को बि Lini to ax O and prop	नुसा re B री / evio me indescom the indescom rm a	ए अप example ank catal and potential and potential	मिर्ना वि of li of sign रिपोर्ट रिपोर्ट स्वाराह्य के आधार रिपोर्ट के आधार के आधार के आधार के आधार के आधार के आधार के कि कि के कि कि के कि कि कि के कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि के कि	स्थिति ndia हीं छि rovid goriz र पर में करनी depe I Boa Act जिम्मे ed b	चोषि (RBI) पाया है ded b atior i पड़ र endin	हे जि है जि होता की शिक्ष के प्राप्त होता है होता है हे बड़ फ हत होंगे
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश । Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c d. क्या आपका पारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY country of birth is any c e. क्या आप भारत के अलावा किसी Are you Tax resident of ANY country of birth is any c e. मारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abort 1. मैं ———————————————————————————————————	FATCA/CR FATCA/CR PART A के नागरिक हैं जिसमें ग्रीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than ! अलावा कोई देश ountry/lies other than to अले हैं जिसका पता मु कार्टिक हैं जी । उत्तर हाँ हैं तो । उत्तर हाँ हो तो । उत्तर हो । उत्त	कार्ड भी शामिल कार्यक्ष कर बोर्ड कोर्ड है। किरम्प्या भाग मा क्रिक्श प्रभावित है कोर्ड है। कार्यक्ष कर बोर्ड कोर्ड है। कार्यक्ष कर बोर्ड कोर्ड है। कार्यक्ष कर बोर्ड कोर्ड है। कार्यक्ष कर बार्ड कार्यक्ष तहत बन ही खाता कर अनु हो साम्यक्र कार्र कार्यक्ष तहत बन हो खाता कर अनु हो साम्यक्र कार्र कार्यक्ष हो साम्यकर कर्य कार्यक्ष कार्यकर है। पिटल स्मॉल फाइ का वार्यकर साम्यकर साम्यकर साम्यकर है।	हा Yes हा Yes है? हा प्रमा हो Part B हो Part B हो I Part B हो I Company I Part B हो I Part B ह	ATCA/(ना ना निय रिजर्व तिय रिजर्व India as तावंजी साक्ष that the i t I have to r as per th दान किए ग any chan incorrect में मुझे ज्ञात future, n he India	बँक आएर notified प्रेम से में किसी भी : I	ECLA कर निव कर निव वेशा/ Co जन्म कर अ बिआई द्वार प्रेम ज्ञान अ tion stat theld an iv सरकार निव स्वित्र स्वार विकर्म है ade the ne detai Govern जी साक्ष्य में may tal tildate m tions for मैं किसी दे ndia or iग का भुगा	RATI ant के f buntry n देश (7 wealth र निवार रा इस सं vernme ive de in tl y mate ive de in tl y mate ive no de ive no d	CONN F लेख पत ंबंध में 3 ंबंध में 3 ंवंध में 3	KYC FOR I / Add of Bir I / Add of Bir resid ARIVE ARI	No. M - dress for th ency चित भा /Centr openiation/ s अनुसा / या इ guideli / वर	(III) - Tax रत मे ral b ing f /doc ines ines on p पर 3 on p	Residence of the property of the province of	म् lence ए पह प्रक्र dof[(एफ dof[को and ed k s pec dec triul ina acti	क भ इड्डान्स्ट्रिक्ट Direct एटीर Direct मित अँ ई अन्स्ट्रिक्ट भीतर Hintl लन में nce	सीएः ऐसी oppor ma i प्रति Banns ma	राहर जन्म राहर सीअ xes कोई rtin y an ve esc esc esc k w	(City प्रस्था प्राप्ति (CB भी म g do ffect समें f के अ rnm ribe Acc pi प्रव ount	सान / स्वा/N सान निर्धा महत्वप Document the focument to pool to pool	यमों र -* -* -* 	को अ के अ serv पानका ary sess च्या म को बि Lini to ax O and prop	नुसा re B री / evio me indescom the indescom rm a	ए अप example ank catal and potential and potential	मिर्ना वि of li of sign रिपोर्ट रिपोर्ट स्वाराह्य के आधार रिपोर्ट के आधार के आधार के आधार के आधार के आधार के आधार के कि कि के कि कि के कि कि कि के कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि के कि	स्थिति ndia हीं छि rovid goriz र पर में करनी depe I Boa Act जिम्मे ed b	चोषि (RBI) पाया है ded b atior i पड़ र endin	हे जि है जि होता की शिक्ष के जि होता है होता है हे बड़ अ हत होंगे हुए jis r
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश : Are you Tax resident of ANY cou d. Do you have POA or a mandate outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न क If your answer to any of the abo' 1. मैं ——— प्रमाणित करता हूं कि मैंने I certify that I have declared my s regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में यूपस रिपोर्ट करने योग्य खाते / अन्य रिपोर्ट पर to the best of my Knowledge and account at a US Reportable account 3. मैं समझता / समझती हूं कि मैं स्वीकार करता हूं में कंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी या अन्य सा understand, acknowledge and aut the residential status and/or othe Taxes (CBDT) or other Governmer common Reporting Standards (CR 4. मैं खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई और undertake the responsibility to de as in the documentary evidence p 5. इस बात से भी सहमत हूं कि मेर आवेदन और के also agree that my failure to disclo the operations of my account or to updated/rectified by me withinth 6. मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के that is called upon me by Capital Sr 7. यदि मेरी ओर से गैर-प्रकटीकरण / सूचना / दर वयन वता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी को थिए। In the event to	FATCA/CR FATCA/CR FATCA/CR FARTA हे नागरिक हैं जिसमें ग्रीन han India 10? अलावा कोई देश ountry other than I n अन्य देश के कर ntry/lies other than I n अन्य देश के कर ntry/lies other than I a अन्य देश के कर ntry/lies other than क है जिसका पता श holder who has u n अन्य हाँ है तो 'उप द्वारा हाँ है कारी एजेंसियों को विदेश holder true, corre t/Other Reportab और अधिकृत करता हूँ वि कारी एजेंसियों को विदेश holder समाल फाइनेंस वैंव se any material fac local स्वारा हो है पिटल स्मॉल फाइनेंस वैंव se any material fac ke appropriate ac se stipulated perior लिए सहमत हूं जो कि कै nall Finance Bank nall प्रवात प्रवात करिता प्रवारा के पलत प्रवारा परि प्रवारा प्रवारा करिता परि परस्ता हो जा कि कै 'परस्ता के पलत प्रवारा 'पर सहस्ता हो जो कि कै 'पर स्तावेज प्रवान के here is any tax	कार्ड भी शामिल कार्ड भी शामिल कार्ड भी शामिल कार्ड भी शामिल कार्ड शिल्ट कार्या मान क्रिक्ट केर्प हैं। क्रिक्ट कार्या मान क्रिक्ट कर बीर्ड क्रिक्ट कर बीर्ड क्रिक्ट कर बीर्ड क्रिक्ट कर बीर्ज कर बीर्ड क्रिक्ट कर बीर्ज कर बीर कर बीर्ज कर बीर कर बी	हा भूड़ हिं। हा भूड़ हैं?	ATCA/ चा कि तीय रिजर्व India as तावेजी साक्ष्म that the i t I have I अधिनियम के एफएटीसीए Tax Act, have to r as per th arm ychan incorrect में मुझे ज्ञात future, n he India र सांग होती र सांग होती र सांग होती र सांग होती	बँक आरब वैंक आरब गार्चा विक्सी के गार्चा विक्सी के गार्चा विक्सी के गार्चा विक्सी भी गार्चा विक्सी भी भी भी भी भी भी भी भी भी भी भी भी भी भ	हिटा कर निव कर निव देशा/Co जन्म क Source केट Co वी by Gov तम ज्ञान औ tion stat sheld an it सरकार न्य रिपोर्टिं nade the nade detai Govern भी किस में ' किसी क्षे ' में किसी के ' ndia or a ' में किसी के ' or a '	RATI ana के f buntry of wealth रा इस सं vernme रा इस सं vernme रा विश्वार रा मानकों र	CON F लेए पता ंच्या में 3 अनु संस्कार में अनु संस्कार में अनु संस्कार में अनु स्वाम	KYC FOR I / Add of Bir I / Add of Bir resid ARIVE ARI	No. M - dress for th ency चित भा /Centr openiation/ s अनुसा / या इ guideli / वर	(III) -Tax -Tax -Tax -Tax -Tax -Tax -Tax -Tax	कर्प Ta: i लाग् jooard oorm cume andix issu (s) a: i resp nall F her; मुझे ह	म् lence १ प्रम् प्रप्ति dof[एफ dof[के di ed k ed k ed c ent :	क र्म क प्रहारा Direct ए मैंने d'sup that in d'sup that flar d'sup that in the man H man	सीएः ऐसी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रेमी प्रिप्त प्रेमी प्रिप्त प्रिचित् प्रिप्त प्रिचित् प्रिचित प्रिचित प्रिच प्रि प्रिच प्रिच प्रिच प्रिच प्रि प्रिच प्रिच प्रिच प्रि प्रिच प्रि प्रि प्रिच प्रि प्रि प्रि प्रि प्रि प्रि प्रि प्रि	सीअ स्वीअ स्वीअ स्वारं कोई Tin pove esc esc esc esc dign	(City, respectively) Transport	मान / Addisonaber RR नि BBDT) Hascau Halling	यमों र //Res पूर्ण जा ment e ass रेत अन् । बैंक र । बैंक र । बैंक र । बेंक र । बेंक र । बेंक र । बेंक र । बेंक र । बेंक र । प्राप्ति । प्राप्ति प्राप्त	को अ इंserv प्रानको वि Lint to to ax (कोर्र min i orop	नुसा re B: शि / evi me innate inter inte	ए अप ank दस्ता deno nt/c Cer plia करने ght: e if:	मनी विकास के अधिक के आधार कर	संखिति त्रिकारीं त्रिक्ट त्रुवारं त्र्यारं त्रुवारं त्रुवारं त्र्यारं त्र्यारं त्र्या त्रुवार त्र्या त्र्यार त्र्या त्र्या त्र्या त्र्या त्र्या त्र्या त्र्या त्र्या	चोषि (RBI) पाया है ded b atior i पड़ र endin	हे जि है जि होता की शिक्ष के जि होता है होता है हे बड़ अ हत होंगे हुए jis r
a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश । Are you Citizen of any country other (dual/multiple) (including Green Care) b. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c c. क्या आपका जन्म देश भारत के Is your Country of birth is any c d. क्या आपके पास पीओए या मैंडेट झा कि you have POA or a mandate outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता Is Your address or telephone nu at Is Your address or telephone nu Is Your address or telephone nu to It your answer to any of the about the properties of the	FATCA/CR FARTA े नागरिक हैं जिसमें थीन han India)? अलावा कोई देश ountry other than ! अलावा कोई जिसके पता प्र स्वाक्षिण कोई ते तो 'e questions is a "Y hirt सरकार केंद्रीय! 's attus as per applic दी गई जानकारी और में छाते का मूल्यांकन / वर्ग belief true, corre- t/Other Reportab और अधिकृत करता हैं कोलारी एजेंसियों को विदेश horize that as per criteria stipulate t Agencies to com) and / or any oth- मेरे द्वारा हस्ताक्षरिज जा clare, disclose and ovided by me or if पेटल स्मॉल फाइनेंस बैंव se any material fac ike appropriate ac estipulated perioc लिए सहमत हूं जो कि वै nall Finance Bank तावेज के गलत प्रकटीक कारि/ दस्तावेज प्रवान क here is any tax ure of informatior	कार्ड भी शामिल निवासी हैं? निवासी हैं? परत से बाहर हैं कुपया भाग स ES' please fil करथा कर बोर्ड को कारण प्रमावित है ct and comple account or b इसके तहत बन मी खाता कर अनु the provision d therein, th ply with the provision d therein, th ply with the recertify wit any certifica o को मान्य करने व ct known to n tion permisse to tho permisse to tho permisse to स्वार भी स्वार के स्वार पिटल स्मॉल फाइ on account o एण के कारण व्या demand { in demand { in dedocuments in documents in documents	हा भूड़ हिं। हा भूड़े हा भूड़ हा भूड़े हा भूड़ हा भूड़े	ATCA/ ना । न । न	हुँ Update CRS II प्राप्त के शारक कार के तारक notified प्राप्त के तियमों और सामा है तियमों और सामा है तियमों और सामा है तियमों और सामा है तियमों अभि रहे तियमों अभि रहे तो मिया कर सामा है है तो मैं मिया कर सामिक सामि	हिटान कर निव देशा/ Co जन्म क Source टेक पे by Gov तम ज्ञान अं tition stat sheld an iv सरकार न्य रिपोटिं nade the ne detai Govern जी साक्ष्य में Ilidate m titions for में किसी ⁴ India or i iग का भुग of rails के स्) railsee pay the	RATI ant के f buntry ा देश (7 deal) रा इस सं रा नियार रा इस सं रा नियार रा विश्वार रा विश्वार रा विश्वार रा विश्वार रा विश्वार रा मानकों र	CON F onv पत ountry a a a a a a a a a a a a a	KYC FOR I / Add of Bir I / Add of Bir resid ARIVE ARI	No. M - dress for th ency चित भा /Centr openiation/ s अनुसा / या इ guideli / वर	(III) -Tax -Tax -Tax -Tax -Tax -Tax -Tax -Tax	कर्प Ta: i लाग् jooard oorm cume andix issu (s) a: i resp nall F her; मुझे ह	म् lence १ प्रम् प्रप्ति dof[एफ dof[के di ed k ed k ed c ent :	क र्म क प्रहारा Direct ए मैंने d'sup that in d'sup that flar d'sup that in the man H man	सीएः ऐसी pppor ma रेर्सी इय व्यव्ह e pro- i y प्रित्ते i y ति Bannss m:	स्रीअ स्रीअ स्रिक्ट कोई rtin y and y and gen and k w and y and land land land land land land land l	VCity, पर्थ प्रमुख पर्थ (CB भी म g do ffect के 3 rnm ribe Acc के प्रमुख ould deer gree	तान / adi/Naber	यमां र /Res पूर्ण जा ment e ass रेत अन् । बैंक र रे/RBI orma ants Ta ening e with	को उ के उ serv पानका ary sess न्य म को वि linta to cax g fo apriv ish	नुसा re B: शि / evi me innate inter inte	ए अप ank दस्ता deno nt/c Cer plia करने ght: e if:	मनी विकास के अधिक के आधार कर	संख्याति mdia fi हिं हि rovid goriz ए पर में करनी deped l Boa Act । जिम्मे ed b	चोषि (RBI) पाया है ded b atior i पड़ र endin	हे जि है जि होता की शिक्ष के जि होता है होता है हे बड़ अ हत होंगे हुए jis r

September Place of Birth Place of Bi	आवेदक-3 Applicant -3 अनिवासी :	भारतीय NON RESIDEN	T चितासी	RESIDENT अनिवार्य फी	लड *Fields are Mandatory
Guitorne Id Piece of Billin ·· —		- INGINI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
The state of the s		Place of Birth _		Risk Categor	risation
TêTR Cender Well Country of Residence (as per tax laws) Will Caste category Well Caste (as per tax laws) Support Country of Residence (as per tax laws) Country of Residence (as per tax laws) Country of Residence (as per tax laws) Support Country of Residence (as pe					
স্বালীৰ স্বালীৰ কৰিব হৈছিল বি Cate category समामान General एकड़ी क्रांति OBC एस सी SC एस सी SC एस सी SC Para का थे। हर नहां के कृष्ण के प्राचित के प्रतिकृति के प्रति के प्रतिकृति के प्रति के प्रतिकृति के प्रति	*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y	*वैवाहिक वर्ग Marital Statu	S एकल Single	विवाहित Married अन्य (
Person at varie (or expert) à signification (so per trai laws) From 60 1*Religion Person		le किन्नर Transgender	*राष्ट्रीयता Nation	ality भारतीय Indian	विदेशी Overseas
Country of Residence (as per tax laws) With a market control (Leense and Country and Coun	*जातीय श्रेणी Caste category 🔲 सामान्य (General पछड़ी जाति	OBC एस सी	SC एस टी ST	
SIGNATION CONTROL OF THE REGISTRATION OF THE			पैन कार्ड		
Passport Size Photo Porting Torm From Size Fathers Name Fathers and Torm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Recent
Form 60 *Rolgion *Volunification Occupation Size Photo Size					
February Name Whother's Name					
Herm file File Months and States					
and the same of t	*माता का नाम				
Signature / Thumburgers of Control of The Control of C	*जीवन साथी का नाम				
स्था आप प्राप्त मार्टिक का का प्राप्त का	विदेशी पता				
सारतीय परितार प्रति (*Overseas Address			I A N D M A R K	
स्तर आप पर (Indome Slab):	CITY				BILLE NO
हैं पील आह ही Email ID 1 1 2 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3	भारतीय पता				
है मेल आह की Email ID Part Indian Address					
है मेल आह की Email ID काल कि स्वार्थ के Email ID काल कि स्वार्थ के Email ID काल कि स्वार्थ के Email ID काल कि स्वार्थ के सामन के स्वार्थ के सामन के स्वार्थ के सामन के स्वार्थ के सामन के स					
श्रीय चारा Income Slab:		ODE STA		Are you a Politically Exposed	Person (PEP) or related to one
जास के साम के बीतन रीत्राम रीत्रा	लाख	ा लाख		क्या आप राजनीतिक रूप से उजागर व लाख	यक्ति (पीईपी) हैं या किसी से संबंधित हैं लाख
Source of Funds Salary Pension Business income Agriculture Investment Income Rental Others Please Specify कहा की प्राप्त 100 critical की 100 critical क	*आय चरम Income Slab: 0-2 Lac		>5-10 Lac		
New Upto Rs. 100 Lac To 200 Lac To 500 Lac Lac To 500 Lac					
स्वा के जाई सी जिस्सा मिजूदा कोई परिवर्तन नहीं स्वित्ता में परिवर्तन सिज्या में परिवर्तन सिजया में सिजया मिजया में सिजया मिजया मि					
#CKYC New Existing No change Existing Update change (KYC No.) FATCA/CRS चोत्रपा पत्र FATCA/CRS DECLARATION FORM - ((INDIVIDUAL) 10. बार आपाल के कुवल किसी करने देश के पारिक्ष है किसले पीन कर्सी के प्रीक्ष पी प्रक्रिक है किसले पीन कर्सी के प्रक्रिक है किसले पीन कर्सी है किसले पीन कर्मी है किसले पीन कर्सी है किसले पीन कर्मी है किसले पीन है किसले पीन कर्मी है किसले पीन कर्मी है किसले पीन कर्मी है किसले पीन कर्मी है किसले पीन है किसले पीन कर्मी है किसले पीन कर्मी है किसले पीन है किसले पीन क्री है किसले पीन ह	Net Worth				Above 113. 300 Eac
a. वा बाच मार के अलग कि के मार के मार की मारिक है है कि की मार की मारिक है? Are you Citizen of any country other than India? D. वहां आपका पान देश मारिक है किया है है किया की कार्य की मारिक है? Are you Tax resident of ANY country-like other than India? C. अगा आप मार के अलग हम के मारिक है किया की कार्य की मारिक है है कि के मारिक हमारिक है किया है कि मारिक हमारिक हमारि		No change Lexisting L		·	
a. बचा क्या माल के बचला किले क्या देश के माणिक हैं जिल्लों गीन करने भी चालिक हैं। a. Are succificated any country other than tables? b. करा आपना जगन देश प्राप्त के अपने कर के किल कर के किल के किल कर के किल कर के किल के किल कर के किल के किल कर के किल कर के किल के किल कर के किल के किल के किल कर के किल के				•	
Country of Dirth is any country other than India?	a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन	कार्ड भी शामिल है?	_		
Support Country of Birth is any country Other than India? प्राप्त के संक्षित के तिराहत है? प्राप्त का संक्षा के स्वार क्रिकेट के स्वार कि स्वार के स्वार कि स्वार के स्वार कि स्वार के स्	(dual/multiple) (including Green Card)?	r #2	- ZTI Country		as of hirth
d. Doy on have PCD or a mandate blotder who has an and addresses of a mandate blotder who has an and addresses of a mandate blotder who has an and addresses of a mandate blotder who has an and addresses of a mandate blotder who has an and addresses of a mandate blotder who has an and addresses of a mandate blotder who has an and addresses of the provisions is a "YES" please fill Part B 1. #	Is your Country of birth is any country other than In	India?	जन्म का देश / Country of I	3irth	धन का स्रोत
d. obs you have POX or a maindare holder who has an address of the provided india? e. अस्पति के ब्राइस का आपका पता या देशीकोन नंबर हैं। 1. विराय के ब्राइस का आपका पता या देशीकोन नंबर हैं। 1. पता के ब्राइस का आपका पता या देशीकोन नंबर हैं। 1. पता अपका करने के प्रतिक किसी मी अपका करने के प्रतिक के प्रतिक किसी मी अपका करने के अपका करने के ब्राइस का अपका करने के अपका करने के ब्राइस का अपका करने के अपका करना है कि अपका करने के अपका करना है अपका करना करना करना करना करना करना करना कर			कर निवास का देश	श कर पहचान संख्या	
Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to a "Tyour any of the account of the account opening form and supporting documentary evidence provided by me is to the best of my knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account to the account o	विश्व आपके पास पाआए या मंडट धारक है जिसका पता भा Do you have POA or a mandate holder who has an a outside India?	address	Country of Tax res	Tax identification number.	1 ax identification Document
Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B Tyour answer to a "Tyour any of the account of the account opening form and supporting documentary evidence provided by me is to the best of my knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account to the account o	e. भारत के बाहर का आपका पता या टेलीफोन नंबर Is Your address or telephone number outside India	र है।			
Icertify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे हारा प्रदान किए गए समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य मेरे सर्चीयम के अनुसार, सत्य, सही और पूर्ण है और मैंने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी / दस्तावेज नहीं िध्याया है जिससे यूएस ऐसोर करने योग्य खाते /अबर विशेष एक correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise. 3. मैं समझता / समझती हूं कि मैं स्वीकार करता हूं और अधिकृत करता हूं कि इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनियम के नियमों और सरकार हारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार आवासीय स्थिति और /या जसमें निर्धारित करने पुरान के सिवार में के केंद्रीय प्रस्था कर बार खें सीबीडीटी या अच्य सरकारी एजीरियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के नियमों और सरकार हारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार आवासीय स्थिति और /या जसमें निर्धारित करने पुरान के सिवार पुरान के सुवार पुरान के सिवार पुरान के सिवार पुरान के सिवार पुरान के सुवार पुरान के					
Icertify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे हारा प्रदान किए गए समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य मेरे सर्चीयम के अनुसार, सत्य, सही और पूर्ण है और मैंने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी / दस्तावेज नहीं िध्याया है जिससे यूएस ऐसोर करने योग्य खाते /अबर विशेष एक correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise. 3. मैं समझता / समझती हूं कि मैं स्वीकार करता हूं और अधिकृत करता हूं कि इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनियम के नियमों और सरकार हारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार आवासीय स्थिति और /या जसमें निर्धारित करने पुरान के सिवार में के केंद्रीय प्रस्था कर बार खें सीबीडीटी या अच्य सरकारी एजीरियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के नियमों और सरकार हारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार आवासीय स्थिति और /या जसमें निर्धारित करने पुरान के सिवार पुरान के सुवार पुरान के सिवार पुरान के सिवार पुरान के सिवार पुरान के सुवार पुरान के	1. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने भारत सरकार केंद्रीय प्र	 प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंव	 आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधि	सूचित भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियम	ों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है।
2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और में हुारा प्रदान किए गए समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य मेर सर्वोत्तम झान और विश्वास के अनुसार, सत्य, सही और पूर्ण है और मैंने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, / दस्तावेज नहीं छिमाया है जिससे यूर्ग्स रिपोर्ट करने योग्य खाते, / अव्य रिपोर्ट पर खाते का मूल्यांकन, / वर्गीकरण प्रमाणित हो / Lectrify that the information stated in the account opening form and supporting documentary evidence provided by me is to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise. 3. मैं समझता 'समझती हूं कि मैं स्वीकार करता हूं और अविकृत करता हूं कि इसके तदत सनार गए आयकर अधिनित्तम फलियों और समझती है कि मैं स्वीकार करता हूं और अविकृत करता हूं कि इसके तदत सनार गए आयकर अधिनित्तम फलियों और समझती है कि मैं स्वीकार करता हूं और अविकृत करता हूं कि इसके तदत सनार गए आयकर अधिनित्तम फलियों और समझती है कि मैं स्वीकार करता हूं और अविकृत करता हूं कि इसके तदत सनार गए आयकर अधिनित्तम फलियों है। अपनुत्तम के निवस्त के कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी खात कर अनुपालन अधिनियम एफलियों और समझती हैं। अपनुत्तम के कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी खात कर अनुपालन अधिनियम एफलियों और समझती हैं। अपनुत्तम के कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी हैं। understand, acknowledge and authorize that as per the previsions of income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter-Governmental/Agreements (IGA) in respect of Marca and/or other criteria stipulated herein, the bank and		cable FATCA/CRS rules in India as no	tified by Government of Inc	lia/Central boardofDirectTaxes (CBDT)/R	eserve Bank of India (RBI) in this
to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/ Other Reportable account or otherwise. 3. मैं समझता, / समझती हैं कि सै सीकार करता हूँ और अधिकृत करता हूँ कि इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनेयम के नियमों और सरकार द्वारा जारी विशानिर्देशों के अनुसार आवासीय स्थिति और / या इसी तरह की कोई अन्य य्यवस्था के आधिन यें के की विवरण की रिपोर्ट करनी पढ़ सकती है I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter-Governmental/Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements. 4. मैं खाता खोलने के कों में प्रवाद को गई और में हुगा इस हराश्वाहित जानकारी के सांच-मांचे में हुगा प्रवान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में या कोई प्रमाण पत्र गलत होने पर 20 दिनों के भीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect. 5. इस बात भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को माज्य करिया में अभी या मिष्य में भू भू झाता करने में अभी भी मीतिक लथ्य का खुलासा करने में बिकला में खाते के संबालन में प्रतिबंध लगाने या उदित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी। I also agree that my failure to disclose any material fack known to me now or in future, may invalidate my application and C	 मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे 				
 मैं समझता / समझती हूं कि मैं स्वीकार करता हूं और अधिकृत करता हूं कि इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनियम के नियमों और सरामान्य रिपोर्टिंग मानको सीआएस और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पढ़ सकती हुं । understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements. 4. मैं खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई और मेरे द्वारा हस्साधरित जानकारी के साथ—साथ मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में या कोई प्रमाण पत्र गलत होने पर 30 दिनों के भीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me ori fany certificate becomes incorrect. 5. इस बात से भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैंपिटल समेंल फाइनेंस बैंक को मान्य करने में अभी या मबिथ्य में मुझे झात किसी भी भीतिक तथ्य का खुलासा करने में विकलता मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या जिंदत कर्म के अधिकार के तहत होगी II also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency i	to the best of my Knowledge and belief true, correc	ct and complete and that I have no			
में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीवीशीटी या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम एफएटीसीए और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों सीआरएस और / या इसी तरह को कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बेंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements. 4. मैं खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई और मेरे द्वारा इस्ताक्षित जानकारी के साथ-माथ मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में या कोई प्रमाण पत्र गलत होने पर 30 दिनों के मीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect. 5. इस बात से मी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटल स्मील फाइनेंस के को माय करने में अभी या मविष्य में मुझे झात किसी भी भीतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता मेरे खाते के संघालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवर्ध करने के अधिकार के तहत होगी II also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me	 मैं समझता / समझती हुं कि मैं स्वीकार करता हुं और अधिकृत करता हुं कि 	के इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनियम के नि	यमों और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश	गों के अनुसार आवासीय स्थिति और / या उसमें निर्धारित	अन्य मानदंडों के आधार पर मेरे खाते के संबंध
the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as a per the inter-Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements. 4. मैं खाता खोलने के फॉर्म में प्रचान की गई और भेरे ह्यार करावािरत जानकारी के साथ—साथ भेरे ह्यारा प्रचान किए गए वस्ताविजी साक्ष्य में या कोई प्रमाण पत्र गलत होने पर 30 दिनों के भीतर फाइबल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect. 5. इस बात से भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटल समेंत फाइनेस बैंक को मान्य करने में अभी या मविष्य में मुझे झात किसी भी मौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी। also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period. 6. मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं जो कि कैपिटल स्मॉल फाइनेस बैंक ह्यारा भारत या विदेश में कानून में किसी भी बदलाव के कारण यहां विषय वस्तु में मुझे बुलाया गया है।/lagree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein. 7. यदि मेर	में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेर्श	शी खाता कर अनुपालन अधिनियम एफएटीसीए अँ	र सामान्य रिपोर्टिंग मानकों सीआरएस :	और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के आधीन बैंव	p को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है ।
common Reporting Standards (CRS) and/or any other similar arrangements. 4. मैं खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई और मेरे द्वारा हस्ताक्षरित जानकारी के साथ—साथ मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में या कोई प्रमाण पत्र गलत होने पर 30 दिनों के मीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect. 5. इस बात से भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को मान्य करने में अभी या मविष्य में मुझे बात किसी भी भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी I also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period. 6. मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं जो के कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हारा भारत या विदेश में कानून में किसी भी बदलाव के कारण यहां विषय वस्तु में मुझे बुलाया गया है / I agree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein. 7. यदि मेरी ओर से गैर—प्रकटीकरण / सूचना / दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूं भारत सरकार / RBI आयकर अधिकारियों के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए In the event there is any tax demand { including including including including including in	the residential status and/or other criteria stipulated	ed therein, the Bank may have to rep	ort the details in respect of i	my account (s) as per the prescribed form	nat to the Central Board of Direct
undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect. 5. इस बात से भी सहमत हूं िक मेरे आवेदन और कैंपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को मान्य करने में अभी या भविष्य में मुझे झात किसी भी भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी।। also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period. 6. मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं जो कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ह्यारा भारत या विदेश में कानून में किसी भी बदलाव के कारण यहां विषय वस्तु में मुझे बुलाया गया है।/lagree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein. 7. यदि मेरी ओर से गैर—प्रकटीकरण/ सूचना/दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रवान करने का वचन देता हूं भारत सरकार / RBI आयकर अधिकारियों के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए। In the event there is any tax demand {including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents that may be necessary for any proceeding 6. अधिकार के स्वाच के स्वच के समक्ष किसी भी किसी के के समक्ष किसी भी किसी के समक्ष किसी भी क	common Reporting Standards (CRS) and / or any othe	er similar arrangements.	· ·	. , ,	
 इस बात से भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को मान्य करने में अभी या मविष्य में मुझे ज्ञात किसी भी मौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी।। also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period. मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं जो कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा भारत या विदेश में कानून में किसी भी बरलाव के कारण यहां विषय वस्तु में मुझे बुलाया गया है।/lagree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein. यदि मेरी और से गैर-प्रकटीकरण/सूचना/दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रवान करने का वचन देता हूं भारत सरकार/ (हो ता प्रवान करने का वचन वेता हूं भारत सरकार/ (हो ता प्रवान करने का वचन वेता हूं भारत सरकार/ (हो ता प्रवान करने का वचन वेता हूं भारत सरकार/ (हो ता प्रवान करने का वचन वेता हूं भारत सरकार/ अपाठ के प्रवान करने का वचन वेता हूं भारत सरकार/ (हो ता प्रवान करने का वचन वेता हूं भारत सरकार/ (हो ता प्रवान करने का वचन वेता हूं कर मांग होता के स्वान कर का खुला कर के कारण व्वान कर का खुला /li>					
also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period. 6. मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं जो कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा भारत या विदेश में कानून में किसी भी बरलाव के कारण यहां विषय वस्तु में मुझे बुलाया गया है।/lagree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein. 7. यिद मेरी ओर से गैर–प्रकटीकरण / सूचना / दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूं और सक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूं और लेक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रवान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रवान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज जिल्ला (including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents on my part, I undertake to pay the demand forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding *Signature (s) / Thumb Impression of 3" Applicant	as in the documentary evidence provided by me or if a	any certificate becomes incorrect. हु को माना करने में अभी या भविष्य में मुझे जान कि	मी भी भौतिक तथा का खनाया करने मे	ं विकलता मेरे खाते के संज्ञालन में प्रतिबंध लगाने गा उन्हि	- त कार्यतार्द करने के थशिकार के तदत दोगी ।।
updated/rectified by me within the stipulated period. 6. मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं जो कि कैंपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा भारत या विदेश में कानून में किसी भी बदलाव के कारण यहां विषय वस्तु में मुझे बुलाया गया है।/lagree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein. 7. यिदे मेरी और से गैर-प्रकटीकरण/ सुचना/दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण ब्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो में मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को समी आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूं भारत सरकार/RBI आयकर अधिकारियों के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए। In the event there is any tax demand {including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents on my part, I undertake to pay the demand forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding we have a supplicated period. *Signature (s) / Thumb Impression of 3th Applicant	also agree that my failure to disclose any material fact	ct known to me now or in future, ma	invalidate my application ar	nd Capital Small Finance Bank would be w	ithin its right to put restrictions in
that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein. 7. यदि मेरी और से गैर-प्रकटीकरण / सूचना/ दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का मुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी/ दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूं भारत सरकार / RBI आयकर अधिकारियों के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए In the event there is any tax demand {including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents on my part, I undertake to pay the demand forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding *Signature (s) / Thumb Impression of 3" Applicant			egulations for the purpose of	r take any other action as may deemed ap	opropriate if the deficiency is not
7. यदि मेरी ओर से गैर-प्रकटीकरण / सूचना / दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण व्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का भुगतान करने का वचन देता हूं और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूं भारत सरकार / RBI आयकर अधिकारियों के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए In the event there is any tax demand { including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents on my part, I undertake to pay the demand forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding of 3" Applicant					nish any particulars/information
कार्यवाही के लिए। In the event there is any tax demand {including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents on my part, I undertake to pay the demand forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding of 3" Applicant	7. यदि मेरी ओर से गैर-प्रकटीकरण / सूचना / दस्तावेज के गलत प्रकटीकर	रण के कारण ब्याज सहित कोई कर मांग होती है,	तो मैं मांग का भुगतान करने का	,	
forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding of 3" Applicant	कार्यवाही के लिए। In the event there is any tax	demand {including interest (if	any) raised due to	, 67	I
	forthwith and provide the bank with all information				

सामन्य घोषणा और उपकृम GENERAL DECLARATION & UNDERTAKING

- मैं /हम एतद्वारा घोषित करता / करती हूं /हैं कि मैं /हम भारतीय मूल का विदेषी नागरिक हूँ /एनआरओ खाते के मामले में निवासी धारक नहीं हूं और किसी भी क्षेत्राधिकार (यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक) का निवासी नहीं हूं /हैं। मैं /हम इस व्रत के क्षेत्राधिकार और भारत में लागू कानून और नियामक आवश्यकता द्वारा खाता प्रतिबंधित हैं। मैं /हम समझते हैं कि उपरोक्त खाता मेरे /हमार द्वारा दिए गए बयानों /घोषणाओं के आधार पर खोला जाएगा और मैं /हम इस बात से भी सहमत हूं /हैं कि यदि यहां दिए गए बयानों /घोषणाओं में से कीई भी वास्तविक विवरण में सही नहीं पाया जाता है, तोआप मेरे /हमारे द्वारा की गई जमा राशि पर कोई ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं हैं।
 - I/We hereby declare that I am/we are non-resident Indian(s)of Indian Origin/Resident holder in case of NRO Account and not residents of any Jurisdiction (i.e. Citizen of Pakistan and Bangladesh) were opening or maintaining of the account is prohibited by the Law and regulatory requirement of such Jurisdiction and / or the applicable laws in India. I/We understand that the above account will be opened on the basis of the statements/declarations made by me/us and I/We also agree that if any of the statements / declarations made herein is found to be not correct in material particulars, you are not bound to pay any interest on the deposit made by me/us.
- मैं / हम सहमत हं / हैं कि जमाराशियों की परिपक्ता की तारीख के बाद किसी भी अवधि के लिए जमाराशियों पर किसी भी ब्याज के लिए मेरे / हमारे द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा II/We agree that no claim will be made by me/us for any interest on the deposits for any period after the date/s of maturity of the deposits. I/We agree to abide by the provisions of the Foreign Currency Account. I/We hereby undertake to intimate you about my/our return to indian for permanent residence immediately on arrival.
- मैंने / हमने चुनी गई प्रक्रिया(ओं) / सेवा(ओं) के नियमों और विनियमों को पढ़ और समझ लिया है और मैं / हमने वहां के आचरण से संबंधित नियमों और शर्तों में समय समय पर किए जाने वाले परिवर्तन से भी सहमत हूं / हैं । I/We have read and understood the rules and regulations of the procedure(s)/ service(s) opted for and agree to abide by the terms and conditions relating to the conduct thereof and also any change brought about there in from time to time.
- मैं / हम एतद्दवारा घोषणा करते हैं कि भारत में केवल वैद्य देय राशि जिसमें किराया, लामांश, पेंशन, व्याज आदि जैसी वर्तमान आय ही शामिल होगी। I/We hereby declare that only legitimate dues in india which would include current income like rent, dividend, pension, interest etc sale proceeds of assets including immovable property acquired out of rupee/foreign currency funds by way of legacy/inheritance will be deposited in my/our NRO account with the prevailing stipulations laid by RBI.
- मैं / हम एतद्वारा सहमत हूं / हैं कि उपरोक्त खाते में लेनदेन भारत में लागू कानूनों द्वारा शासित होंगे और उपरोक्त खाते के संबंध में लेनदेन या मामलों से संबंधित या संदर्भित सभी विवाद या मतभेद भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे और उपरोक्त खाते के संबंध में लेनदेन या मामलों से संबंधित या संदर्भित सभी विवाद या मतभेद भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। I/We here by agree that the transactions in the above account will be governed by the applicable laws in India and all disputes or differences arising out of or related to or connected with transaction or matters in relation to the above account shall be subject to' Jurisdiction of Indian Courts'
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(5), अध्याय 3 के तहत । Under Section 10(5), chapter III of Foreign Exchange Management Act, 1999
- में /हम एतद्वारा घोषित करता हूं / करते हैं कि लेनदेनों का विवरण जिनका विशेष रूप से यहां अनुसुची में उल्लेख किया गया है, वे पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी नियम विनियम के उल्लंघन या चोरी के उद्देश्य से नहीं है। मैं /हम यहां भी सहमत हैं और इस तरह की जानकारी / दस्तावेजों को बैंक द्वारा लेन-देन करने से पहले देने का वचन देते हैं और जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो सकता है और साथ ही उपरोक्त घोषणा के अनुसार लेनदेन के बारे में आपको यथोवित रूप से संतुष्ट करते रहेंगे। मैं /हम यह भी समझते हैं कि यदि मैं /हम ऐसी किसी आवश्यकता का अनुपालन करने से इनकार करते हैं या उसके साथ असंतोषजनक अनुपालन करते हैं, तो बैंक लेनदेन करने के लिए लिखित रूप से मना कर देगा और यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि मेरे द्वारा किसी भी उल्लंघन / अपवेचन पर विचार किया गया है तो हम भारतीय रिज़र्व बैंक को मामले की रिपोट करते हैं।।/We hereby declare that the transaction(s) the details of which are specifically mentioned in the Schedule hereunder does not involve and is not designed for the purpose of any contravention or evasion of the provisions of the aforesaid Act of any rule regulation, notification, direction or order made thereunder. I/We also hereby agree and undertake to give such information/ documents before the Bank undertakes the transaction(s) and as may be required from time to time as well reasonably satisfy you about the transactions(s) in terms of the above said declaration. I/We also understand that if I/We refuse to comply with any such requirement or make unsatisfactory compliance therewith the Bank shall refuse in writing to undertake the transaction and shall if it has reason to believe that any contravention/evasion is comtemplated by me/us report the matter to Reserve Bank of India.
- भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) की घोषणा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक (पीआईओ) के लिए मान्य नहीं हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के उपयोग पर खाताधारक समय—समय पर वेबसाइट www-capitalbank-co-in पर निर्धारित नियमों और शर्तों से बाध्य होगा। उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रखना खाताधारक का कर्तव्य है। Person of indian origin (PIO) declaration. citizen of bangladesh and pakistan are not considered PIO. The account holder on usage of the Capital Small Finance Bank Ltd. Internet Banking facility will be bound by the terms and conditions in force from time to
- time as set forth on the website www.capitalbank.co.in. It is the duty of the account holder to protect and keep the user Id and password protected, safe and secured. कैंपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से दिए गए निर्देशों के आधार पर किसी भी प्रकार के लिंक किए गए खातों के डेबिट होने के लिए खाताधारक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इन सेवाओं से जुड़े फीस डबूटी या अन्य शुल्क लागू होंगे। समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार सभी लिंक किए गए खाते (खोले जाने वाले किसी भी नए खाते सहित) को फंड ट्रांसफर सुविधा के तहत कवर किया जाएगा। The account holder shall be fully responsible for any kind of linked accounts getting debited based on the instructions given through the Capital Small Finance Bank Ltd. Internet Banking User ID and password. The Bank will not be held responsible. The fees, duties or other charges associated with these services will be as applicable. All the linked accounts (including any new accounts that may be opened) will be covered under the funds Transfer facility as per the rules in force from time to time.
- कैंपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के खाताधारक उल्लिखित सेल फोन नंबरों पर मोबाइल बैंकिंग के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कोई अतिरिक्त विशेष सुविधा प्राप्त करने की स्थिति में खाताधारक निर्देष्ट मोबाइल लंबरों के निर्देशों पर खाते से डेबिट होने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इन सेवाओं से जुड़े शुल्क, कर्तव्य या अन्य शुल्क लागू होंगे। इन सेवाओं के संबंध में खाताधारक या उस या मोबाइल सेवा प्रदाता की ओर से गलती के मामले में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और खाताधारक सहमत हैं कि बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। The account holders of Capital Small Finance Bank Ltd. are responsible for the registration of Mobile Banking at the cell phone Numbers mentioned. In the event of availing any additional / specialized facility through Mobile Banking the account holder shall be fully responsible for the account being debited on instructions from the specified mobile numbers. The fees, duties or other charges associated with these services will be as applicable. In case of mistake on part of the account holder or that or mobile service provider in respect of these services, the bank will not be responsible and the account holders agree that no claim will be made against the Bank.
- provider intespect of rices services, the bank winnot be responsible and the account motives agree trait not claim will be present the bank. में हमारी खिकार हिए आप जानकारी और संवेदनशील आने करते हैं और स्वीकार करते हैं कि साझा व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत अप जानकारी आप हो के को प्रदान करते हैं और स्वीकार करते हैं कि साझा व्यक्तिगत जानकारी व्यक्तिगत स्वना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43ए और सूचना प्रौद्योगिक की धारा 3 (उचित सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रिया और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 (डेटा) के अर्थ के भीतर डेटा या सूचना का प्रौद्योगिक्त करती हैं। मैं /हम प्रौत्योगिक्त करते हुए सुनते हैं कि मुझे अधिनियम के बार में सूचित किया गया है कि में? हमारे बायोगिट्रिक्स और डेटा को संसाधित किया जाएगा और मैं /हम यहां अपनी स्विधक, स्पष्ट और सुचित किया गया है कि में? हम इसके हारा अपनी सहमति देते हैं के कैंक को मेरे /हमारे डेटा को तृतिय पर्धा? (केव्रकाओं को प्रकट करने के लिए या यह के विक ऐसे डेटा या जानकारी को विशेष रूप प्राप्त कर्ताओं की निम्मलिखित श्रेणियों को इस्तांतरित करने का हकतर होगा जो बैंक के आप अपनी उटा उनके साथ साया करने के लिए वैंक को अपनी सहमति देते हैं। //We hereby give my/our consent to the processing of my/our Personal Information and Sensitive Personal Data or Information which I/we hereby voluntarily provide to the Bank and acknowledge that the shared Personal Information and Sensitive Personal Data or Information represents sensitive personal data or information within the meaning of Section 43A of Information Technology Act, 2000 and Section 3 of Information Technology (Reasonable Security Practice and Procedure and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 ("Data"). I/we hereby represent that I/we have been informed of the fact that my/our Bio metrics and Data, will be processed and I/we hereby give my voluntary, unequivocal and informed consent hereto I/we hereby give my consent to the Bank to disclose my/our Data to third parties/vendors and that the Bank shall be entitled to transfer such data or information in particular to the following categories of recipients not limited to the Bank's suppliers, the Bank's employees, providers of marketing and advertising services to the Bank, and other parties in other contractual relationship with the Bank. I/we further give my consent to the Bank to share my Data with Government Agencies/regulatory/statutory bodies mandated under the law as and when required to obtain information for the purpose of verification of identity, or for prevention of intrusion or spread of computer contaminant, detection, investigation, analysis, including cyber incidents/security, prosecution and punishment of offences related there to. I /we have no objection to the Bank providing me information on various products, offers and services rendered by the Bank through any mode (including without limitation through telephone calls / SMS/ E-mail) and authorize the Bank/its group companies, its agents/ its representatives for the above purpose. 1/we agree to indemnify and keep indemnified the Bank and the persons or entities from whom it may obtain, or with whom it may disclose or verify my/our Data free and harmless from any liability arising from the use of any such Data. I/we understand that the Bank reserves the right to amend or supplement this consent form with future effect at any time, as far as the changes made are in the interest of the Customer. I/we hereby have no objection and give my consent for receiving OTP (One Time Password) on my registered mobile number for the purpose
- of authentication of this consent form.

 मैं/ हम बँक को मुझे/हमें एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत करता हूं/ करते हैं। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि कार्ड का उपयोग समय पर लागू नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है और इसके लिए बाध्य होने के लिए सहमत हैं। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि कैंक द्वारा समय—समय पर नियमों और शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। मैं/हम बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बँक को मेरे/हमारे खाते से एटीएम/पीओएस टर्मिनलों के उपयोग के लिए वार्षिक शुल्क के बराबर राशि डेबिट करने के लिए अधिकृत करता हूं। I/We authorise bank to issue an ATM/Debit Card to me/us. I/We acknowledge that the issue and usage of the card is governed by the terms and conditions as in force from time to time and agree to be bound by the same. I/We accept that the terms and conditions are liable to be amended by bank from time to time. I/We further unconditionally and
- irrevocably authorise bank to debit my/our account with an amount equivalent to the annual fee and charges for use of the ATM./POS Terminals

 मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय—समय पर निर्धारित विनिम्य नियंत्रण विनियमों के अनुसार कार्ड का से उपयोग करने का वचन देता/देती हूं। मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अनुसार जो विदेशी मुद्रा उपयोग की जाएगी वह व्यापारिक यात्रा कोटा की सीमा के भीतर होगी। I/We undertake to strictly utilise the card in accordance with the Exchange Control Regulations as laid down by Reserve Bank of India from time
- to time. I/We confirm that the foreign exchange which will be used will be within the limits of the Business Travel Quota as per Foreign Exchange Management Act 1999.
 मैं/हम उन दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे जिनका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के उपयोग के संबंध में किया जाता है। मैंने/हमने बैंक में खाता खोलने और बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/डेबिट कार्ड/फोन बैंकिंग/मोबाइल सहित विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों और शर्तों (जिसकी एक प्रति मेरे पास है) को पढ़ और समझ लिया है। मैं बैंक की देयता को छोड़कर/सीमित करने सहित उक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करता/करती हूं और सहमत हूं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक अधान पुर्विवेक से मुझे /हमें बिना किसी सूचना के किसी सूचना के किसी से सेवा प्राप्त के किसी सूचना किसी सूचना के किसी सूचन
- services including but not influed to Army Debit Cardy Florions including flores excluding flimiting the Bank's liability. I/We understand that the Bank may, at its absolute discretion, discontinue any of the services completely or partially without any notice to me/us. मैं सहमत हूं कि बैंक समय—समय पर लागू सेवा शुल्क के लिए मेरे खाते से डेबिट कर सकता है। I agree that the bank may debit my account for service charges as applicable from time to time. कैपिटल स्मील फाइनेंस बैंक लिमिटेड ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण, लेनदेन अलटे. ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटोपी) के कारण गोपनीयता के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक उन्हें प्राप्त ईमेल /एसएमएस की प्रामाणिकता की पुष्टिन करेगा। यदि हमारे कंपूटर नेटवर्ड का एसएमएस गेटा बों को इस स्मया उत्तरम्न होती है तो ग्राहक वेंक जे उत्तरदायी नय दिव प्राहक को गलत ईमेल पर्न / प्रदान किए गए मोबाइल नंबर और तकनीकी कारणों से ईमेल / एसएमएस प्राप्त नाईही होता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। Capital Small Finance Bank Ltd. will not be liable or responsible for any breach of secrecy because of Statements, Transaction alerts, One Time Password (OTP) sent on e-mail or mobile number provided by the customer. The customer shall verify the authenticity of the emails/SMS they receive. The customer shall not hold the bankliable if any problem arises with our computer network or SMS gateway. The bank shall not be responsible if the customer does not receive email/SMS due to incorrect email address/mobile no. provided and due to technical
- address/infoline inc. provided and due to declinical.

 मैं /हम बैंक को इस फॉर्म में फिल्टिबित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल विवरण / एसएमएस और ईमेल लेनदेन अलर्ट / ओटीपी भेजने के लिए अधिकृत करता हूं। जमा किया गया पंजीकरण परिवर्तन अनुरोध इस फॉर्म में दी गई जानकारी के संबंध में किसी भी पिछले सूचना अनुरोध को ओवरराइड कर देगा। I/We authorise the Bank to send the email statements/SMS and email transaction alerts/OTP on the email ID and mobile number mentioned in this form.The registration/change request submitted will override any previous information/requests with respect to the information provided in this form. reasons.

 मैं /हम घोषणा करता हूं / करते हैं कि खातों को नियंत्रित करने वाले बैंकों के नियम और विनियम मेरे / हमारे द्वारा पढ़े जाते हैं। मैं हम इसका और समय—समय पर किए गए किसी भी परिवर्तन का पालन करने के लिए सहमत हूं / हैं। I/We declare that
- Bank's Rules and Regulations now in force groverning the accounts are read by me/us. I/We agree to abide by the same and also any changes made from time to time.
- मैं / हम बैंक को समय-समय पर लागू सेवा, वार्शिक शुक्क के साथ मेरे / हमारे खाते को डेबिट करने के लिए अधिकृत करता हूँ / हैं। संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह्वारा आपके पास जमा किए गए बिल, चेक आदि के मामले में, आप उन्हें संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह्वारा आपके पास जमा किए गए बिल, चेक आदि के मामले में, आप उन्हें संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह्वारा आपके पास जमा किए गए बिल, चेक आदि के मामले में, आप उन्हें संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह्वारा आपके पास जमा किए गए बिल, चेक आदि के मामले में, आप उन्हें संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह्वारा आपके पास जमा किए गए बिल, चेक आदि के मामले में, आप उन्हें संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह्वारा आपके पास जमा किए गए बिल, चेक आदि के मामले में, आप उन्हें संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह्वारा आपके पास जमा किए गए बिल, चेक आदि के मामले में, आप उन्हें संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह्वारा आपके पास जमा किए गए बिल, चेक आदि के मामले में, आप उन्हें संग्रह के लिए समय-समय पर मेरे / हमारे ह

my/our risk and responsibility.

- 20. मैं / हम हर समय निर्धारित न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखने का वचन देता / देते हूँ / हैं। बैंक मेरे / हमारे द्वारा जारी किए गए चेकों को वापस करने के लिए स्वतंत्र है जो न्यूनतम शेष राशि से कम हैं। I/We undertake to maintain stipulated minimum / average balance at all times. Bank is at liberty to return cheque(s) issued by me/us falling short of minimum balance.
- 21. मैं /हम यह भी वचन देता / देती हूं कि निधि की कमी के कारण हमारे किसी भी चेक के अनादरित होने की गुंजाइश नहीं होगी, बैंक इस तरह के अनादर के मामले में बिना किसी सूचना के मेरा / हमारा खाता बंद करने के लिए स्वतंत्र है। I/We also undertake not to give scope for dishonour of any of our cheques on account of insufficiency of funds. Bank is at liberty to close my/our A/c without any notice in case of such dishonour.
- 22. मैं/ हम समझते हैं कि बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता बैंक के परिसमापन/ निरस्तीकरण की तारीख के समान अधिकार और उसी क्षमता में उसके द्वारा धारित मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा किया जाता है। और बैंक लाइसेंस के रव्द होने या जिस दिन समामेलन/ विलय होने तक यह योजना लागू होती है। I/we understand that each depositor in a bank is insured upto a maximum of Rs 5 lac for both Principal and Interest amount held by in/her in the same right and same capacity as on the date of liquidation/cancellation of bank license or the date on which the scheme of amalgamation/merger/we reconstruction comes into force.
- 23. मैं / हम इस खाते पर आपके द्वारा देय धन, जिसमें आपका कमीशन, ब्याज और अन्य शुल्क और खाते में किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले किसी भी ढेबिट शेष के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होने का वचन देता हूं।//We undertake to be jointly and severally liable to you for any money(ies) owing to you on this account, including your commission, interest and other charges and for any debit balances arising in the account for what so ever reason.
- 24. मैं / हम फर्म / कंपनी के गठन में किसी भी परिवर्तन और खाते के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी अन्य परिवर्तन के बारे में बैंक को सूचित करने का वचन देता / देती हूं ॥/We undertake to notify the Bank of any changes in the constitution of the firm/company and any other changes effecting the conduct of the account.
- 25. आयकर अधिनियम 1961 और आयकर नियमों के अनुसार समय—समय पर टीडीएस की दर लागू होगी। TDS rate will be applicable from time to time as per the income tax Act, 1961 & Income tax rules.
- 26. मैं सहमत हूं कि मेरा व्यक्तिगत / केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ सांझा किया जा सकता है और मैंने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एसएमएस / ईमेल के माध्यम से बैंक / केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दी हुइ है। I agree that my personal /KYC details may be shared with Central KYC Registry and I hereby give my consent to receive information from Bank/Central KYC registry or any other authority through SMS/Email on the registered mobile no. or email Id.

Most Important Document

- मैं /हम खाता खोलने के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करता हूं, जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की किसी भी शाखा में उपलब्ध है और जो बैंक की वेबसाइट www-capitalbank-co-in पर भी उपलब्ध है। I/we confirm having read and understood terms and Conditions of account opening, which is available at any of the branches of Capital Small Finance Bank and which is also available on bank's website www.capitalbank-co-in
- मैंने/हमने एमआईडी की ग्राहक प्रति में उल्लिखित महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को भी प्राप्त, पढ़ा और समझा है। मैं/हम इससे या समय–समय पर लागू होने वाले किसी अन्य नियम से बाध्य और पालन करने के लिए सहमत हैं।
- 1/ We have also received, read and understood important terms and conditions as mentioned in the customer copy of the MID. I / We agree to be bound by and abide by it or any other rules that may be in force from time to time.
- मैं / हम निम्नलिखित को विशेष रूप से समझते हैं और स्वीकार करते हैं रून मैंने / हमने ______ खाता के लिए सदस्यता ली है और इसके लिए लागू एक्यूबी /एम बी रू.______ है। मेरे / हमारे द्वारा सब्सक्राइब किए गए उपरोक्त खाता पर लागू प्रमारों की अनुसूची (एसओसी)। मैं / हम एत्ह्वारा सहमत हूं / हैं कि बैंक समय—समय पर लागू सेवा शुल्क के लिए मेरे / हमारे खाते से डेबिट कर सकता है।

 1/ We specifically understand and accept the following: 1.1 / We have subscribed for the Product

 and the applicable AQB/MB for the same is Rs.

 2.1 / We have read the details
- of all Features and Charges available in the Schedule of Charges (SOC) as applicable to the above Product subscribed by me / us. . 1 / We hereby agree that the bank may debit my/our account for service charges as applicable from time to time.
- में / हम समझते हैं कि चालू खाता व्याज रहित खाता है। I /We understand that Current Account is a non interest bearing account.
- में / हम समझते हैं कि यदि मैंने उक्त खाता फॉर्म 49ए के साथ खोला है, तो मुझे / हमें खाते की तारीख से 90 दिनों के मीतर बैंक को पैन जमा करना होगा। विफल होने पर बैंक मेरे खाते को फ्रीज करने के लिए बाध्य होगा।
- I/we understand that if I have opened the said account with Form 49A, I/we need to submit PAN to the bank within 90 days from the date of account opening, failing which bank will be constrained to freeze my account.
- मैं / हम स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि बैंक के पास किसी भी समय बैंक के एसओसी और उसके नियमों और शर्तों में निर्धारित सेवा शुल्कों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। I / We accept and agree that the Bank reserves the right to change its service charges, as laid out in the Bank's SOC, and its Terms and Conditions at any time.

*हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आचेदक —1 *Signature (s) / Thumb Impression of 1st Applicant *हस्ताक्षर/अंगृठे का निशान आवेदक —2 *Signature (s) / Thumb Impression of 2nd Applicant *हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आवेदक —3 *Signature (s) / Thumb Impression of 3rd Applicant

ग्राहक हस्ताक्षर सत्यापन प्रमाणपत्र Customer Singnature Verification Certificate

ALC A COUNTY	With the American Customor Chigh	aturo vormou	rion doi timouto
कृप्या सही विकल्प चुने (Please tick as appropriat यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण मे उन् In case where ID Proofs submitted by the apport यदि जमा किये गये प्रमाण पर हस्ताक्षर खाता के In case signature on ID Proofs submitted are di	नके हस्ताक्षर नही है। licant does not carry his/her signature े खोलने के फार्म पर हस्ताक्षर से भिन्न	हैं ।	
1 [*] आवेदक 1 st Applicant	2 [™] आवेदक 2 nd Applica	nt	उ [™] आवेदक 3 [™] Applicant
उपयुकत ग्राहक / आवेदक ने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षा The above said customer(s) / Applicant(s) has / have si		0 '	के वाई सी अनुपालन /आपरेशन प्रमुख अधिकारी के हस्ता n of Br Head / Ops Head / KYC Compliance Office

Most Important Document

Date: Customer's Copy

- You have subscrided for the product_____with applicable Average Quartely/Monthly Balance Rs_
 The Bank official has explained you the Terms & Conditions of Account opening, Features and Charges of Product.
- The Bank official has explained you the Most Important Document as set out in the Bank's Account opening form including consent and declaration and you have signed the same after understanding and accepting the terms contained therein.
- The account shall be opened subject to verification of document, clearance of Initial Payment cheque & Bank may reject/cancel your request in case of any discrepancies.

Signature of bank official with seal

Capital Small Finance Bank 🎇

नामांकित फार्म NOMINATION FORM (DA-1) वामंकन पंजीकृत न	NOMINATION REGD NO.									
नामांकित व्यक्ति Nominee	जमाकर्ता के साथ संबंध (यदि कोई)									
नाम Name	Relationship with depositor (if any):									
पता Address										
शहर City	देश Country									
पिन कोड जन्मतिथि (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग हो) Pin code Date of birth (if nominee is minor)	आयु (वर्ष) Age (yrs):									
इस तिथि पर नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, मैं/हम नियुक्त करते हैं श्री/श्रीमति/कुमारी *As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum										
मेलिंग पता Mailing address										
नामांकित के साथ संबंध Relationship with Nominee	नियुक्त व्यक्ति की आयु Age of Appointee (Years)									
मेरे / हमारे / अवयस्क की मृत्यु नामांकित व्यक्ति के अवश्यक रहने के दौरान होने की स्थिति में जम् To receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my /	॥ राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित की।									
*हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आवेदक -1 *हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आवेदक -2	*हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान आवेदक –3									
*Signature (s) / Thumb Impression *Signature (s) / Thumb Impression	*Signature (s) / Thumb Impression									
of 1st Applicant of 2nd Applicant	of 3rd Applicant									
साक्षी*** Witness***										
नाम Name										
irk Address Address										
Signature of Witness (1)	Signature of Witness (2)									
चालू चाल खाता संगठन का विवरण CURRENT ACCOUNT-DETAILS OF ORGANISATION										
संस्था/संगठन का नाम										
Entity Name संस्थापन की तारीख	बक्री Gross Turnover									
्र फुटकल विक्रेता थोक विक्रेता उत्पादक सर्विर	न पदाता									
	ce Providers अन्य Others									
ऋण सुविधाओं के संबंध में घोषणा DECLARATION REGARDING CREDIT FACILITIES मैं/हम एतद् द्वारा निम्नानुसार घोषणा करते हैं और वचन देता हूँ/ देते हैं: I/We hereby declare and undertake as under: (1) फर्म ने किसी अन्य बैंक से कोई सी सी/ ओ डी सीमा प्राप्त नहीं की हुई है। The firm is not availing any CC/OD limit from any other bank. (2) फर्म अन्य बैंकों से सी सी/ ओ डी के अतिरिक्त अन्य ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही है The firm is availing credit facilities (other than CC/OD) from other banks and the total sanctioned exposure from the banking system including Credit facilities with Capital Small Finance Bank Limited is: a) 5 करोड़ रूपए से कम Less than Rs. 5 crore b) 5 करोड़ रूपए या अधिक लेकिन 50 करोड़ रूपए से कम c) रूपए 50 करोड़ या अधिक Rs. 50 Crore or more										
(3) उपरोक्त बिन्दु 2 के तहत मेरे/हमारे द्वारा उल्लेखित स्वीकृत एक्पोजर के अनुसार, मैं/हम कैपिटल स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को सूचित करेंगे कि जब और किसी बैंकिंग सिस्टम से फर्म द्वारा प्राप्त स्वीकृत क्रेडिट सुविधाएं (केपिटल स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ क्रेडिट सुविधाओं सहित) किन अन्य मानदंड के तहत योग्य हो जाती हैं और उनके खाते में संचालन के बाद लागू नियम शर्तों और कानून के प्रावधानों और कैपिटल स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आंतरिक दिशानिर्देशों के अधीन होंगे और मैं/हम इसके लिए बाध्य रहेंगे IAs per the sanctioned exposure mentioned by me/us under Point 2 above, I/We shall inform Capital Small Finance Bank Limited as and when the sanctioned credit facilities availed by the Firm from the banking system (including credit facilities with Capital Small Finance Bank Limited) falls/becomes eligible under any other criteria and thereafter the operations in the account shall be subject to the applicable terms/conditions and provisions of law and internal guidelines of Capital Small Finance Bank Limited and I/we shall be bound by the same; (4) मैंने/हमने बैंक को समय-समय पर उपरोक्त के लिए फर्म के ब्यूरो रिपोर्ट जेनरेट करने के लिए उद्देश्य किया है। I/We further authorize the bank to generate bureau reports of the firm for the above purpose from time to time.										
	Signature with Seal									
Capital Small Finance Bank ACKNOWLEDGEMENT - DA 1 We acknowledge receipt of nomination made by you in favour of:	Sr.No.									
Name of the Nominee	Age: Years.									
with respect to Your A/c. No(s)										
Nomination Regd. NoDate of Receipt form	Signature of bank official with seal									